

05th December, 2024

To, **BSE** Limited Listing Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001

Security Code: 526544 **Security ID: SCANPGEOM** ISIN: - INE967B01028

Sub.: Newspaper publication of corrigendum to the letter of offer dated November 28, 2024

Respected Sir/Madam,

With reference to the captioned subject and as per direction received from the BSE, we have published the corrigendum to the letter of offer dated November 28, 2024 in the following newspaper on December 05, 2024:

- 1. Financial Express (English) National daily All Editions
- 2. Jansatta (Hindi) National Daily All Editions
- 3. Financial Express (Gujarati) Ahmedabad Edition

We are submitting herewith the newspaper clippings of the above-mentioned newspapers.

Kindly take the same on your records and acknowledge the receipt.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For SGL Resources Limited

(Formerly known a Scanpoint Geomatics Limited)

Mr. Kantilal Whole-time directo

(DIN: 00016171)

FINANCIAL EXPRESS



THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA



SCANPOINT GEOMATICS LIMITED

Corporate Identification Number: L22219GJ1992PLC017073

Our Company was originally incorporated as 'Scanpoint Graphics Limited' at Ahmedabad as a public limited company under the Companies Act, 1956 and was granted the certificate of incorporation on February 07, 1992. Thereafter, our Company was granted the certificate of commencement of business dated March 06, 1992. Subsequently, pursuant to a special resolution of the shareholders dated September 10, 2007 passed in the 15th AGM of the Company, the name of our Company was changed to 'Scanpoint Geomatics Limited' vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated April 22, 2008 issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. For details of change in the name and address of Registered Office of our Company, please see the chapter titled "General Information" beginning on page 38.

Registered Office: D-1016-1021, 10th Floor, Swati Clover, Shilaj Circle, S.P. Ring Road, Shilaj, Ahmedabad, Daskroi, Gujarat, India, 380059 Telephone: +91 07949391735; Email: cs@sgligis.com

Contact Person: Krishna Bhavsar, Company Secretary and Compliance Officer; Email: cs@sgligis.com; Website: www.sgligis.com

Corporate Identification Number: L22219GJ1992PLC017073

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER ("LOF") DATED NOVEMBER 28, 2024 OUR PROMOTERS: RAMESHCHANDRA SOJITRA, CHIRAG JAYANTILAL SONI, VAACHA SOJITRA, VISHWAS RAMESHCHANDRA SOJITRA, LEELAVANTI R SOJITRA AND RAMESHCHANDRA K SOJITRA HUF

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SCANPOINT GEOMATICS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY ISSUE OF UP TO 8,23,72,552 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹6/- EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹04/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT OF ₹4942 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 49 (FORTY NINE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 100(HUNDRED) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON NOVEMBER 27, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 3 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 101 OF THIS LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription

This is with reference to LOF filled with the BSE and dispatched to the Shareholders of the company through E-mail and courier. Potential Shareholders may note the following: 1. Under the section titled "DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS" beginning from printed page no. 04 (pdf page 7) of the LOF, titled "Issue / the Issue / this Issue / Rights Issue"; the words should be read as Issue upto 8,23,72,552 Rights Equity Shares for cash at a price of ₹ 6/- per Rights Equity Share (including a share premium of ₹ 4/- per Rights Equity Share) instead of Issue upto 8,23,72,552 Rights Equity Shares for cash at a price of ₹ 5/- per Rights Equity Share (including a share premium of ₹ 3/- per Rights Equity Share).

Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in Letter of Offer of SCANPOINT GEOMATICS LIMITED (The Company). The shareholders/investors of the company are requested to note the amendments with respect to and in connection with LOF. The corrigendum is filed with BSE and will be available on the website of www.bseindia.com. And on the website of the company i.e. www.sgligis.com

REGISTRAR TO THE ISSUE

WWW WEALTH MINE Networks Pvt. Ltd. **LINK**Intime WEALTH MINE NETWORKS PRIVATE LIMITED LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED 215 B, Manek Centre, P N Marg, Jamnagar, Gujarat-361001. C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India. Telephone: + 7778867143 Telephone: + 91-810 811 4949; Email: wealthminenetworks@gmail.com Email: scanpoint.rightsaugust2024@linkintime.co.in Website: www.wealthminenetworks.com Website: www.linkintime.co.in Investor Grievance Email: wealthminenetworks@gmail.com Investor Grievance Email: scanpoint.rightsaugust2024@linkintime.co.in Contact Person: Mr. Jay Trivedi Contact Person: Ms. Shanti Gopalakrishnan SEBI Registration Number: NM000013077 SEBI Registration Number: INR000004058 CIN: U93000GJ1995PTC025328 CIN: U67190MH1999PTC118368

This corrigendum is issued and published as per the instruction and direction of the office of BSE limited dated December 4, 2024. Note: All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Letter of Uff

For, SCANPOINT GEOMATICS LIMITED

Krishna Bhavsar

Company Secretary and Compliance Officer

..continued from previous page.

IN TERMS OF THE SEBI CIRCULAR NO. CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015, DATED NOVEMBER 10, 2015 AND THE ALL-POTENTIAL INVESTORS SHALL PARTICIPATE IN THE ISSUE ONLY THROUGH AN APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") PROCESS PROVIDING DETAILS. ABOUT THE BANK ACCOUNT WHICH WILL BE BLOCKED BY THE SELF-CERTIFIED SYNDICATE BANKS ("SCSBS") FOR THE SAME. FURTHER PURSUANT TO SEBI CIRCULAR BEARING NO. SEBI/HO/CFD/TPD1/CIR/P/2023/140, FOR IMPLEMENTATION OF PHASED III FOR UPI FACILITY, WHICH IS EFFECTIVE FROM DECEMBER 01, 2023 ON MADATORY BASIS, ALL POTENTIAL BIDDERS (EXCEPT ANCHOR INVESTORS) ARE REQUIRED TO MANDATORILY UTILIZE THE APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") PROCESS PROVIDING DETAILS OF THEIR RESPECTIVE ASBA ACCOUNTS OR UPI ID (IN CASE OF RIIS), IN WHICH THE CORRESPONDING APPLICATION AMOUNTS WILL BE BLOCKED BY THE SCSBS OR UNDER THE UPI MECHANISM, AS APPLICABLE. FOR DETAILS IN THIS REGARD, SPECIFIC ATTENTION IS INVITED TO "ISSUE PROCEDURE" ON PAGE NO. 191 OF THE RED HERRING PROSPECTUS. IN CASE OF DELAY, IF ANY IN UNBLOCKING/REFUND THE APPLICATION MONEY AT THE RATE OF 15% PER ANNUM FOR THE PERIOD OF DELAY. THE ISSUE IS BEING MADE UNDER PHASE III OF THE UPI (ON A MANDATORY BASIS).

BID/ISSUE PROGRAMME

ANCHOR INVESTORS: Monday, December 09, 2024 Bid Opening Date: Tuesday, December 10, 2024 Bid Closing Date (T day): Thursday, December 12, 2024

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

Finalization of basis of allotment with the Designated Stock Exchange/ Allotment of Securities (T +1 Day)	On or Before December 13, 2024	Credit of Equity Shares to demat accounts of Allotees (T +2 Days)	On or Before December 16, 2024
Initiation of Unblocking of Funds/refunds (T +2 Days)	On or Before December 16, 2024	Commencement of Trading of Equity Shares on the Stock Exchanges/Listing Date (T + 3 Days)	On or Before December 17, 2024

TIMELINES FOR SUBMISSION OF APPLICATION

Application Submission by Investors

Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) - Upto 5 pm on T day.

Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA etc) - Upto 4 pm on T day. Electronic Applications (Syndicate Non-Retail, Non Individual Applications) - Upto 3 pm on T day.

Physical Applications (Bank ASBA) - Upto 1 pm on T day.

Physical Applications (Syndicate Non-Retail, Non Individual Applications of QIBs and NIIs) - Upto 12 pm on T day and Syndicate members shall transfer such applications to banks before 1 pm on T day.

UPI Mandate acceptance time: T day - 5 pm

Issue Closure: T day - 4 pm for QIB and NII categories

T day - 5 pm for Retail and other reserved categories

In case of any revisions in the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days, Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Manager, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-Red Herring Prospectus. allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI"): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds. the Draft Red Herring Prospectus was filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Issue Document. subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15.00% of the Net issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35.00% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Bidders (except Anchor Investors) are required to participate in the Issue by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. For details, see "Issue Procedure" on page 191 of Red Herring Prospectus.

Bidders / Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Risk Factors' on page 22 of the Red Herring Prospectus.

Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders /Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active.

Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards its objects: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters' on page 129 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 249 of the Red. Herring Prospectus.

Liability of Members of the Company: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorised share capital of the Company is ₹ 3,00,00,000 divided into 30,00,000 Equity Shares of ₹10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹1,38,60,000 divided into 13,86,000 Equity Shares of ₹10 each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 55 of the Red Herring Prospectus

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the Book | Memorandum of Association of our Company: Mr. Narayanan Jayan - 5000 Equity Shares and Mrs. Reshma Budhia - 5000 Equity Shares. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 55 of the Red Herring Prospectus.

LISTING: The Equity Shares Issue through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited (BSE SME). Our Company has received an inprinciple approval from the BSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated November 08, 2024. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be SME Platform of BSE Limited (BSE SME). A signed copy of the Red Herring Prospectus has been submitted with the ROC on December 03, 2024 and Prospectus shall be submitted for registration to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the

Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 172 of the RHP. DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way

be deemed or construed that the contents of the Red Herring Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE, nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Red Herring Prospectus. The investors are advised to refer page 174 of the Red Herring Prospectus for the full text of the "Disclaimer Clause of the SME Platform of BSE Limited".

GENERAL RISK: Investments in equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issue and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE



BEELINE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED

SEBI Registration Number: INM000012917 Address: B 1311-1314, Thirteenth Floor, Shilp Corporate Park, Rajpath Rangoli Road, Thaltej, Ahmedabad, Gujarat - 380054, India. Telephone Number: 079 4918 5784

Email Id: mb@beelinemb.com Investors Grievance Id: ig@beelinemb.com Website: www.beelinemb.com Contact Person: Mr. Nikhil Shah CIN: U67190GJ2020PTC114322

REGISTRAR TO THE ISSUE

LINKIntime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED Address: C 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai- 400083, Maharashtra, India Tel. No.: +91-8108114949

Fax No.: +91-022-49186195 Email: tosscoin.smeipo@linkintime.co.in

Website: www.linkintime.co.in Investor Grievance Email: tosscoin.smeipo@linkintime.co.in

Contact Person: Shanti Gopalkrishnan

SEBI Registration No.: INR000004058

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

toss the coin

TOSS THE COIN LIMITED Contact Person: Ms. Pooia Jain, Company Secretary and

Website: www.tossthe.co.in

Compliance Officer. Address: Old No. 29, New No.62, Abhiramapuram 3rd Street,

Abhiramapuram, Chennai - 600018, Tamil Nadu, India Tel No.: +91 9840040096 Email: info@tossthe.co.in

Secretary and Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

Investors can contact the Company

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue.

BRLM to the Issue at www.beelinemb.com, the website of BSE i.e. www.bseindia.com, respectively. AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Toss The Coin Limited, Telephone: +91 9840040096; BRLM: Beeline Capital Advisors Private Limited, Telephone: +91 79 6907 2020

and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of BSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI. ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: HDFC Bank Limited. UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors For, Toss The Coin Limited

Mr. Narayanan Jayan Chairman and Managing Director DIN - 08893678

Place: Chennai Date: December 04, 2024

Exchanges. The RHP is available on the websites of SEBI at www.beelinemb.com, the website of the Company at www.beelinemb.com, the website of the Company at www.beelinemb.com, the website of the BRLM to the Issue at www.beelinemb.com, the website of the Company at www.beelinemb.com same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Red Herring Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the

Disclaimer: Toss The Coin Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issue of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies. Chennai on December 03, 2024 and thereafter with SEBI and the Stock

Securities Act and in accordance with any applicable U.S., state securities laws. The Equity Shares are being Offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

Ahmedabad

सातारा नगरपरिषद, सातारा

दुरध्वनी क्रमांक ०२१६२-२३४०७६/२३४०७७ Email: sataramunicipal@gmail.com

ई निविदा सूचना क्र. ११ सन २०२४-२०२५ (ऑनलाईन) निविदा

मुख्याधिकारी, सातारा नगरपरिषद, सातारा ४१५००१ (दूरध्वनी क्रमांक २३४०७६) नोंदणीकृत एजन्सीकडून ई-निविदा प्रणालीद्वारे (ऑनलाईन) जा.क्र./सानप/साबां/१०७२ दि. ०३/१२/२०२४ अन्वये मागवित आहेत. सर्व पात्र/ इच्छूक निविदाकारांनी निविदापत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी व निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी ई निविदा प्रणालीच्या Main Portal- http://mahatenders.gov.in व याच http://mahatenders.gov.in साईटवर enrolled करणे आवश्यक आहे.

Alembic

Certificate(s)

Shareholder's Name

and/or Claimant's Name

Date : 4th December, 2024

અધિકારીએ પોતાના અધિકારથી નીચે દર્શાવેલ મિલકતનો કબજો મેળવેલ છે.

डिभान्ड नोटिसनी

લેણી રકમ +

डिभान्ड मोरिअ

તારીખ ઃ

२४.०६.२०२४

ર૨.૫૯.૧૨૯.૨૯

अने तेना

डिभान्ड नोटिस

તારીખ ઃ

oe.oe.२o२४

२३.५४.७०४.०

अने तेना

પરનું વ્યાજ

પૂરેપુરી રકમ ન ચૂકવાચ ત્યાં સુધી બોજાને આધીન રહેશે.

(૮) ની જોગવાઈ તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવે છે.

ઉદ્યારકર્તાઓ / જામીનદારો / ગીરોકર્તાનું

નામ અને શાખા

ન્હ્રી દાર્મેશ સવજીભાઇ મારૂ

શ્રીમતી દિપ્તી ધર્મેશ મારૂ

(ઉદ્યારકર્તા) અને

(સહ-ઉધારકર્તા)

શાખા : કાલાવર્ડ રોક,

રાજકોટ (૩૭૬૬૦૦)

ર શ્રી ગોહિલ કુલદીપસિંહ વજુભા (ઉદ્યારકર્તા)

શાખા : અંજાર, કરછ

(รนชขออ)

Place: Vadodara

Kantaben Rambhai Patel

(Deceased) Legal Heir

Paresh Rambhai Patel

(अभिजीत बापट) मुख्याधिकारी सातारा नगरपरिषद, सातारा

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES Notice is hereby given that the following Equity Shares Certificate of the Company have been

transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority and the legal heir(s) of the registered shareholder(s) have reported them as lost/misplaced and for the purpose of claiming the shares from the IEPF Authority, have applied for the issue of duplicate Equity Shares

Certificate

No.

31189

The Public is hereby warned against purchasing or dealing with these Equity Shares Certificate in any way. Any person(s) having any claim in respect of the aforesaid Certificate(s), should immediately send full details with documentary evidence to the Company's RTA - Link Intime

India Private Limited at its office at "Geetakunj" 1, Bhakti Nagar Society, Behind ABS Tower, Old Padra Road, Vadodara – 390 015 or to the Company at its Registered Office mentioned above, so

as to reach them/us within 15 days from the date of publication of this Notice, failing which, the

Company will proceed to issue duplicate shares certificate(s) for the purpose of claiming the

Please note that no claims will be entertained by the Company or the RTA with respect to original

रांजाब नैश्वनल बैंक 🖳 punjab national bank

સસ્ત્ર કીવીઝન, બીજો માળ, જે.પી. સેફાયર, રેસકોર્સ રીંગ રોડ, રાજકોટ. Email: cs8304@pnb.co.in

કબજા નોટિસ (અચલિત મિલકતો માટે)

એસેટ્સ એન્ડ એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફ સિકચુરીટી ઇન્ટરેસ્ટ એક્ટ ૨૦૦૨ ની ધારા ૧૩ સાથે વંચાતા નિયમ ૩ હેઠળ સિકચોરીટી ઇન્ટરેસ્ટ (એન્ફોર્સમેન્ટ) નિયમ ૨૦૦૨ ના અંતર્ગત નીચે દર્શાવેલ તારીખે કરજદારો/ જામીનદારો/ ગીરોકર્તાને ઉમાન્ડ નોટિસ જારી કરેલ હતી કે જેમાં

જણાવવામાં આવે છે કે નીચે દર્શાવેલ તારીખે ઉપરોક્ત નિયમોના અંતર્ગત નિયમ ૮ ના ધારા ૧૩ (૪) ના અંતર્ગત નીચે હસ્તાક્ષર કરેલ

નોટીસમાં દર્શાવેલ સદર નોટીસ જારી કર્યા∕ નોટિસ પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી ૬ ૦ દિવસમાં ચૂકવવા જણાવવામાં આવ્યું હતું.

आथी, नीये सही डरनार **पंजाज नेशनल जेंड** ना अधिड़त अधिडारीએ सिडयुरीटाઇ'Sेशन अने रीडन्स्ट्रेडशन ओइ इायनान्सीयल

કરજદારો/જામીનદારો/ ગીરોકર્તાઓ આ રકમ ચુકવવામાં અસફળ રહેલ છે, આથી કરજદાર/ જામીનદાર અને જાહેર જનતાને

કરજદારો/જામીનદારો/ ગીરોકર્તાઓ અને જાહેર જનતાને સામાન્ય રીતે અહીંથી ચેતવણી આપવાની કે નીચે દર્શાવેલ મિલકતો અંગે કોઇ ચવહાર કરવો નહીં અને મિલકતો અંગેનો કોઈપણ વ્યવહાર **પંજાબ નેશનલ બેંક** ની નીચે દર્શાવેલ બાકી રકમ અને ચડત વ્યાજ તથા ખર્ચા સાથે

. ગીરવે રાખેલ અસ્કચામતો આપેલા સમયમાં છોડાવવા અંગે કરજદારો / જામીનદારો / ગીરોકર્તાઓનું કાયદાના સેકશન૧ ૩ના સબ-સેકશ

અચલિત મિલકતોનું વર્ણન

પ્રાથમરી સિક્ચોરિટી : બધા ભાગ અને અંશ સહિતની રહેણાંક

ફલેટ ધરાવતી અચલિત મિલકત : જે રેવન્યુ સર્વે નં. ૩૯૭ પૈકી

. સીટી સર્વે નં. ૫૬૭૯, સીટી સર્વે વોર્ડ નં. ૭/૩, ટી.પી. સ્ક્રીમ

નં. ૪. કાઇનલ પ્લોટ નં. ૧૦૨૧ પૈકી. પ્લોટ નં. ૧ ના સબ

પ્લોટ નં. ૧/ડી ની ૨૬૦-૧૨૮ સ્કે.મી. વિસ્તારની જમીન પર

બાંધકામ થચેલ લો-રાઇઝ બિલ્ડીંગ, ''ગજરાજ એવન્યુ'' તરીકે ઓળખાતું બિલ્ડીંગ, પાંચમો માળ, ફલેટ નં. ૫૦૨, બિલ્ટઅપ

એરિયા પં૩-૨૨ સ્કે.મી., કાર્પેટ એરિયા સમાન ૪૪-૩૫ ખાતે સ્થિત છે. (માલિકીના અધિકારો સાથે) (અહીં પછી મિલકત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.) **ચર્તુસિમા નીચે મુજબ છે** ઉતર: કોમન પેસેજ અને ત્યારપછી અન્યોની મિલકત **દક્ષિણ :** કોમન પેસેજ અને ત્યારપછી જાહેર રસ્તો, **પૂર્વ :** મુખ્ય દરવાજો અને ત્યારપછી ક્રોમન પેસેજ, દાદર, **પશ્ચિમ** : ક્રોમન

પ્લોટ નં. ૧૪૯-૧૫૦. સર્વે નં. ૫૫/૧. 'અંબાજ શિનાચ કેઝ

, ગામ : શિનાચ, તાલુકો : ગાંધીધામ, જી. કચ્છ ખાતે સ્થિત

. જે **કુલદીપસિંહ વજુંભા ગોઢીલ** ના નામની છે. **ચર્તુસિમા નીચે મુજબ છે : પૂર્વ :** ૯.૦૦ મી. રસ્તો. **પશ્ચિમ :** ૧.૫૦ મી.

ગલી, **ઉતરઃ** પ્લોટ નં. ૧૪૮, **દક્ષિણઃ** પ્લોટ નં. ૧૫૧.

મિલકતના માલિકી : શ્રી ધર્મેશ સવજીભાઇ મારૂ

Folio

No.

0018054

shares from the IEPF Authority without further information.

share certificate(s) subsequent to the issue of duplicate(s) thereof.



ALEMBIC LIMITED

Email: alembic.investors@alembic.co.in Website: www.alembiclimited.com

Regd. Office: Alembic Road, Vadodara - 390 003

Distinctive

143595121 - 143613945

No. of

Shares

18.825

For Alembic Limited

Company Secretary

Keval Thakkar

Sd/-

પ્રકાર/ સ્થળ

03.92.2028

સાંકેતિક

રાજકોટ

સાંકેતિક

शिनाथ

સહી/ અધિકૃત અધિકારી, પંજાબ નેશનલ બેંક

CIN: L26100GJ1907PLC000033

Tel.: +91 265-6637000

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited (भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) (A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.) नवनत्न सीपीएसई A Navratna CPSE

CIN No. L40101HP1988GOI008409 LI HYDRO ELECTRIC PROJECT

PRESS NOTICE - E- Tender No SJVN/AHEP/P&C/109/2024/DCB-03 invited on behalf of SJVN Ltd. for "Field Groutability Test at Dam axis on Left and Right Bank of Attunli HEP" For details, please visit websites www.sjvn.nic.in, https://eprocure.gov.in and https://etender.sivn.co.in

Bid submission is started from 05.12.2024 (11:00 Hrs.) and last date for bid submission is 26.12.2024(15:00 Hrs.) Amendment(s)/Corrigendum(s), if any, shall be issued on above

Head of Department (P&C) Arunachal Pradesh Projects, SJVN Ltd., Etalin, Dibang Valley District Arunachal Pradesh-792101 Mob. No. 9831476001, 8448810034



Bandhan રીજનલ ઑફિસઃ નેતાજી માર્ગ, મીઠાખળી છ રસ્તા પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૬. ફોનઃ ૯૧-७૯-૨૬૪૨૧૬७૧-७૫

ભૌતિક કબજા અંગેની નોટિસ

। સિક્યુરિટાઈઝેશન એન્ડ રિકન્સ્ટ્રકશન ઑફ ફાઇનાન્સિયલ એસેટ્સ એન્ડ એન્કોર્સમેન્ટ ઑફ સિક્યુરિટી ઈન્ટરેસ્ટ એકટ, ૨૦૦૨ની કલમ ૧૩(૧૨) हેઠળ આપવામાં આવેલી સત્તાઓ, કે જેનો અર્થ દ સે ક્યુરિટી ઈન્ટરેસ્ટ (એન્કોર્સમેન્ટ) રૂલ્સ, ૨૦૦૨ના નિચમ ૩ માં આપવામાં આવ્યો છે, તે સત્તાઓનો ઉપયોગ કરતાં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, અધિકૃત અધિકારીએ, અહીં જણાવેલાં ખાતાંનાં દેવાદારોને કેમાન્ક નોટિસ પાઠવી હતી અને તેમાં તે નોટિસ મબ્યાની તારીખથી ૬૦ દિવસની અંદર, રકમ ભરપાઈ કરી દેવા માટે જણાવ્યું હતું. દેવાદાર આ રકમ ભરવામાં નિષ્ફળ ગયા હોવાથી, દેવાદાર અને જાહેર જનતાને નોટિસ આપવામાં આવે છે કે , નીચે સહી કરનાર વ્યક્તિએ,ઉપરોક્ત ધારાની કલમ ૧૩ની પેટા કલમ (૪) જેનો અર્થ ઉપરોક્ત ધારામાં નિયમ ૮ માં આપવામાં આવ્યો છે—તે મુજબ તે વ્યક્તિ (નીચે સહી કરનાર) ને મળેલી સત્તાનો ઉપયોગ કરીને, તેણે અહીં નીચે જે મિલકતનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે, તે મિલકતનો ભૌતિક કબજો લઈ લીધો છે. આથી, ખાસ કરીને દેવાદાર અને જાહેર જનતાને ચેતવવામાં આવે છે કે તે મેલકત અંગે કોઈપણ પ્રકારનો વ્યવहાર કરવો નહીં અને છતાં જો તે મિલકત અંગે કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવहાર કરવામાં આવશે તો તે અંગેની રકમ, વ્યાજ, ખર્ચ અને શુલ્ક બાબતે, બેંકને આધીન રફેશે. સિક્યોઃ એસેટ રીડીમ કરવા/પરત મેળવવા માટે ઉપલબ્ધ સમયના સંદર્ભે કાયદાની કલમ ૧૩ની પેટા કલમ (૮) ની જોગવાઈઓ તરફ કરજદાર/ગીરો મુકનારનું ધ્યાન દોરવામાં આવે છે.

દેવાદારનું નામ અને લોન ખાતા નં.	મોર્ટગેજ મિલકતનું વર્ણન (સિક્ચોર્ડ એસેટ)	ડિમાન્ડ નોટિસની તારીખ	ભૌતિક કબજા અંગેની નોટિસની તારીખ	ડિમાન્ડ નોટિસની તારીખ મુજબ બાકી રકમ
શ્રી દિનેશજી વિરાજી ઠાકોર શ્રીમતી જશીબેન વિરાજી ઠાકોર ૨૦૦૦૧૦૧૦૦૧૦૯૩૯	તમામ ચલ અને અચલ સંપત્તિ, જે સવેં નં.આર, બ્લોક નં.૫૦, જુના સવેં નં.૩a/૧, ફાઇનલ પ્લોટ નં.૭ પૈકી દક્ષિણ બાજુ, મકાન નં.૧૬, શ્રીજી શેમ્સ–૨, વિમલ ડેરીની સામે, મુ.–પાલાવાસણા, તા અને જિલો– મહેસાણા, ગુજરાત–૩૮૪૦૦૧ સ્થિત છે અને જે આવરિત છેઃ ઉત્તરઃ શ્રીજી શેમ્સ–૨, સ્કીમ પ્લોટ નં.૭, પૂર્વઃ લાગુ શ્રીજી શેમ્સ–૨, સ્કીમ પ્લોટ નં. ૧૫, પ્રશ્ચિમઃ લાગુ શ્રીજી શેમ્સ–૨, સ્કીમ પ્લોટ નં. ૧૫, દક્ષિણઃ આંતરિક માર્ગ	૦૫.૦૪.૨૦૨૪	0૧.૧૨.૨૦૨૪	રૂ.૬,૯૬,૧૬૦.७૨
શ્રી બનવારીલાલ માગુરામ વર્મા શ્રીમતી બિદામી બનવારીલાલ વર્મા ૨૦૦૦૧૦૧૦૦૧૧૧૦૦	તમામ ચલ અને અચલ સંપત્તિ, જે સર્વે નં.૪૫૩, ફાઈનલ પ્લોટ નં.૧૪ પૈકી જમીન, મકાન નં.૬૯, સાંઈ દર્શન રેસીડેન્સી, ઉચરપી રોડ, શ્રીજી હોમ્સ પાછળ, મુ.મહેસાણા, તા અને જિલ્લોઃ મહેસાણા, ગુજરાત–૩૮૪૦૦૧ સ્થિત છે અને જે આવરિત છેઃ ઉત્તરઃ આર.એસ.નં.૪૫૪, પૂર્વઃ પ્લોટ નં.૬૮, પશ્ચિમઃ પ્લોટ નં.૭૦, દક્ષિણઃ આંતરિક માર્ગ	09.09.2028	0૧.૧૨.૨૦૨૪	રૂ.૩,૮૫,૬૩૮.૨૩
શ્રી જબ્બરસિંહ જવાનસિંહ પુરોહિત શ્રી મનોહરસિંહ જવાનસિંહ પુરોહિત ૨૦૦૦૧૦૧૦૧૨૪૮૮	તમામ ચલ અને અચલ સંપત્તિ, જે સર્વે નં.૯૫૫, જૂનો કોન્સો એસ.આર.નં.૪७७/ ર પૈકી, ફાઈનલ પ્લોટ નં.૨૩, મકાન નં.૪७, સુવિધા રેસીકેન્સી, ઉચરપી રોક, પાર્થ સિટી પાસે, મુ.તા.–મહેસાણા, જિ.–મહેસાણા,ગુજરાત–૩૮૪૦૦૧ સ્થિત છે અને જે આવરિત છેઃ ઉત્તરઃ મકાન નં.૪૬, પૂર્વઃ કોમન પ્લોટ, પશ્ચિમઃ આંતરિક માર્ગ, દક્ષિણઃ મકાન નં.૪૮	२३.०५.२०२४	09.99.9098	રૂ.ક,૪૨,૪૨૫.૦૯
સ્થળઃ મહેસાણા તારીખઃ ૦૫/૧૨/૨૦૨૪				અધિકૃત અધિકારી બંધન બેંક લિમિટેડ

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA



SCANPOINT GEOMATICS LIMITED

Corporate Identification Number: L22219GJ1992PLC017073

Our Company was originally incorporated as 'Scanpoint Graphics Limited' at Ahmedabad as a public limited company under the Companies Act, 1956 and was granted the certificate of incorporation on February 07, 1992. Thereafter, our Company was granted the certificate of commencement of business dated March 06, 1992. Subsequently, pursuant to a special resolution of the shareholders dated September 10, 2007 passed in the 15th AGM of the Company, the name of our Company was changed to 'Scanpoint Geomatics Limited' vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated April 22, 2008 issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. For details of change in the name and address of Registered Office of our Company, please see the chapter titled "General Information" beginning on page 38.

Registered Office: D-1016-1021, 10th Floor, Swati Clover, Shilaj Circle, S.P. Ring Road, Shilaj, Ahmedabad, Daskroi, Gujarat, India, 380059 Telephone: +91 07949391735; Email: cs@sgligis.com

Contact Person: Krishna Bhavsar, Company Secretary and Compliance Officer; Email: cs@sgligis.com; Website: www.sgligis.com

Corporate Identification Number: L22219GJ1992PLC017073

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER ("LOF") DATED NOVEMBER 28, 2024

OUR PROMOTERS: RAMESHCHANDRA SOJITRA, CHIRAG JAYANTILAL SONI, VAACHA SOJITRA, VISHWAS RAMESHCHANDRA SOJITRA, LEELAVANTI R SOJITRA AND RAMESHCHANDRA K SOJITRA HUF

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SCANPOINT GEOMATICS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY ISSUE OF UP TO 8.23.72.552 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹6/- EACH NCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹04/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT OF ₹4942 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 49 (FORTY NINE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 100(HUNDRED) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON NOVEMBER 27, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS

EQUITY SHARES IS 3 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON

PAGE 101 OF THIS LETTER OF OFFER. *Assuming full subscription

Company Secretary and Compliance Officer

This is with reference to LOF filled with the BSE and dispatched to the Shareholders of the company through E-mail and courier. Potential Shareholders may note the following: 1.Under the section titled "DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS" beginning from printed page no. 04 (pdf page 7) of the LOF, titled "Issue / the Issue / this Issue / Rights Issue"; the words should be read as Issue upto 8,23,72,552 Rights Equity Shares for cash at a price of ₹ 6/- per Rights Equity Share (including a share premium of ₹ 4/- per Rights Equity Share) instead of Issue upto 8,23,72,552 Rights Equity Shares for cash at a price of ₹ 5/- per Rights Equity Share (including a share premium of ₹ 3/- per Rights

Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in Letter of Offer of SCANPOINT GEOMATICS LIMITED (The Company). The shareholders/investors of the company are requested to note the amendments with respect to and in connection with LOF. The corrigendum is filed with BSE and will be available on the website of www.bseindia.com. And on the website of the company i.e. www.sgligis.com

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
WWW WEALTH MINE Networks Pvt. Ltd.	LINK Intime
WEALTH MINE NETWORKS PRIVATE LIMITED 215 B, Manek Centre, P N Marg, Jamnagar, Gujarat-361001. Telephone: + 7778867143 Email: wealthminenetworks@gmail.com Website: www.wealthminenetworks.com Investor Grievance Email: wealthminenetworks@gmail.com Contact Person: Mr. Jay Trivedi SEBI Registration Number: NM000013077 CIN: U93000GJ1995PTC025328	LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083, Maharashtra, India. Telephone: + 91-810 811 4949; Email: scanpoint.rightsaugust2024@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Investor Grievance Email: scanpoint.rightsaugust2024@linkintime.co.in Contact Person: Ms. Shanti Gopalakrishnan SEBI Registration Number: INR000004058 CIN: U67190MH1999PTC118368
This corrigendum is issued and published as per the instruction and direction of the office of Note: All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them For, SCANPOINT GEOMATICS LIMITED Sd/- Krishna Bhavsar	

This is only an advertisement for information purpose and not for publication. distribution or release directly or indirectly outside India. This notice does not constitute an offer or invitation or inducement to purchase or sell or to subscribe for, any new securities at the Company. All capitalized terms used and not defined here shall have a meaning assigned to them in the Letter of Offer dated 25th May, 2024 filed with BSE Limited the stock exchange where the Equity Shares of the company are, presently listed and with SEBI for information and dissemination purposes

પ્રાયમરી સિક્યોરિટી : બિનખેતીલાયક રહેણાંક હેતુ મકાન : જે 🛭 ૦૩.૧૨.૨૦૨૪

Chola सिड्योरीटार्ध)शन योन्ड रीडन्स्ट्रडशन ओइ हायनान्सियं येसेट्स यने योनहोर्समेन्ट ओई सिड्योरीटी छल्टरेस्ट योडट, २००२ नी डलम १३(२) हेढण मांगणा नोटीस દેવાદાર(રો)નું નામ અને સરનામું સુરક્ષિત મિલકત અ. 4. **બિશા તપન દેસાઈ (અરુવદ),** પ્રવર, પાંચમો માળ, પાંચમા માળે ફ્લેટ નં. પવર ઇરાવતી સ્થાવર મિલકતના તમામ ભાગ, જે રપપવ ચોરસ ફૂટના છ, અટલ ક પ્રથમ રેસિડેન્સી, દેવીના પાર્ક સામે, વિસ્જાવી માર્ગ, રુવદ ૧૦૭ ચો.મી. સુપર બિલ્ટ-અપ એરિયા અને ૧૭૮૫ ચોરસ ફૂટ એટલે કે ૧૬૫.૮૯ ચો.મી. મીટર બિલ્ટ નવસારી, ગુજરાત - ૩૯૬૪૪૫ **ર.તનિષ્ક પાર્ટી સેલ્સ (સલ** નવસારી, ગુજરાત - ૩૯૬૪૪૫ **ર.તનિષ્ક પાર્ટી સેલ્સ (સલ** આઉન્દર ક્લોર) ગલસારા, ગુજરાત - કલ્ફેડજપ **ર.તાનજ પાટા સહ્ત (સંદ**ુ અપ વિસ્તાર, જે ૧૧૫૦ ચોટસ ફૂટ ધરાવે છે. એટલે કે ૧૦૬,૮૭૭ ચો.મી. બાજુમાં ઓવેલી ખુલલી અગાસી અશ્રભા નગર, નવસારી, ગુજરાત ૩૯૬૪૪૫ **૩. આવે** તપનકુમા**ર દેસાઈ (સહ-અરજદાર),** ૫૦૨, ૫મો માળ, પ્રથમ નવસારી નગરપાલિકાનું મકાન નં.૩૯૮૮/એફ-૫૦૨, લોર્ડ નં.૧૪માં "પ્રથમ સ્ટેસીકેન્સી"માં તા. પર દેશકેન્સી, દેવીના પાર્ક સામે, વિરંજલી માર્ગ, નવસારી, ઇટલેક્ન્સી, દેવીના પાર્ક સામે, વિરંજલી માર્ગ, નવસારી, ગુજરાત - ૩૯૬૪૪૫ **૪.પ્રથાત મહેન્ડ, નાયક (સહ-**ગુજરાત - ૩૯૬૪૪૫ **૪.પ્રથાત મહેન્ડ, નાયક (સહ-**અરજદાર), ૧૧-૩૦૩, ગ્રીન સિટી, ભાઠા, સુરત, ગુજરાત મૂળ પ્લોટ નં.૨૪, અંતિમ પ્લોટ નં.૨૯, મોજે ગામે આવેલ: નવસારી, રખ ડિસ્ટ્રીક્ટ અને જિલ્લો: નવસારી સર્જદાર), ૧૧-૩૦૩, ગ્રીન સિટી, ભાઠા, સુરત, ગુજરાત મૂળ પ્લોટ નં.રજ, અંતિમ પ્લોટ નં.ર૯, મોજે ગામે આવેલઃ નવસારી, સબ ડિસ્ટ્રીક્ટ અને જિલ્લોઃ નવસારી ૯૪૫૧૦ **૫. ભૂમિકા અશોકભાઈ દેસાઈ (સલ-અરજદાર),** ૧-૩૦૩, ગ્રીન સિટી, ભાઠા, સુરત, ગુજરાત ૩૯૪૫૧૦ પેરોજ, **ઉત્તરઃ** સુરિયામ રસ્તા અવકાશનો ભાગ છોડીને**, દક્ષિણઃ** ખાનગી માલિકીની સંપત્તિ જગ્યા છોડીને

(આ નોટિસનું અંગ્રેજીમાંથી અન્ય ભાષામાં અનુવાદ કરતી વખતે કોઈ ક્ષતિ થયેલ જણાશે તો કાયદાકીય રીતે અંગ્રેજી લખાણ જ માન્ય ગણાશે)

ચોલામંડલમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઈનાન્સ કંપની લિમીટેડ

લોનની રકમ માંગણા નોટીસની તારીખ બાકી લેણાંની રકમ 0/04/2022 HE01NVI00000023353 Rs.7000000.00 18/11/2024 રા. 6800230.00 તા. 18/11/2024 મુજબ વ્યાજના કરારી દરે આગળના વ્યાજ સહિત કુલ બાકી નીકળતી રકમ (રૂપિચામાં)6800230.00 દેવાદાર(રો)નું નામ અને સરનામું સુરક્ષિત મિલક

૧. જય હર	ીશકુમાર દવે (અરજ	દાર) , ગાયત્રી. વ	ઝક્ષી શેરી, ગ્રીન ચોક	. મોરબી-૩૬૩૬૪૧ ૨.	બાંધવામાં આવેલા રહેણાંક મકાનનો તમામ ભાગ	ા અને પાર્સલ
રવિભાઈ હર	ીશ દવે (સહ-અરજદા	ટ), ગાયત્રી . બર્લ	ો શેરી , ગ્રીન ચોક , મોર	2બી-૩૬૩૬૪૧ ૩. હરીશ	જમીનની જમીન ૮૭-૩૬ ચો.મી. તાલુકાના ત્રાજ	પર ગામત ળ
હેમંતરામભા	ાઈ દવે (સહ-અરજદાર). પ્લોટ નં .૭/એ .	. રહાકા . કમલા પાર્ક .	રૂપિકેશ વિદ્યાલય સામે .	ગામે આવેલ પ્લોટ નં.૭/અ પૈકીનું - જિલ્લા મોરા	બી તાલુકાની
ગજરાત હા	ઉસિંગ બોર્ડ પાછળ . ·	ત્રાજપર રોડ પારે	કો, વોરા માર્ગ પાસે	. મોરબી-૩૬૩૬૪૨. ૪.	 ચતુઃસીમા નીચે મુજબ છે :- ઉત્તર : પ્લોટ ને .૭ ની જ	1મીન, દક્ષિણ
હેંસાબેન હર	શેશભાઈ દવે (સહ-અર	જદાર). પ્લોટ નં	ાં ૭/એ . ૩૮ાકા . કમલા '	પાર્ક. ૩ષિકેશ વિદ્યાલય	િ! આ પ્લોટની જમીનના બ્લોક ન ૧ પૈકીની જમીન ,	પૂર્વ : ૨૦-૦૦
સામે , ગુજર	ાત હાઉસિંગ બોર્ડ પાછ	ળ , ત્રાજપર રોડ	પાસે, વોરા માર્ગ પાસે	ો, મોરબી-૩૬૩૬૪૨. પ.	ફ્ટિટ રોડ , પશ્ચિમ : નોંધણી જિલ્લાની અંદર પ્લોટ વ	નં.ફની જમીન
ભાવિન હરી	શભાઈ દવે (સહ-અર૧	દાર), ગાયત્રી, રૂ	થીન ચોક, મો૨બી ૬૩૮∂	૮ ગુજરાત ૩૬૩૬૪૧	સંબ રજિસ્ટ્રેશન કરોરી મોરબી	
લોનની તારીખ	ખાતા નંબર	લોનની રકમ	માંગણા નોટીસની તારીખ		બાકી લેણાંની રકમ	એનપીએ તારીખ
-an	ડી	sí	એન		M	ગ્રેગ

1/03/2016 X0HEMBI00001644919 Rs.1900000.00 **રા. 2060050.00 તા. 18/11/2024** મુજબ વ્યાજના કરારી દરે આગળના વ્યાજ સહિત 18/11/2024 કુલ બાકી નીકળતી ૨કમ (રૂપિયામાં)2060050.00 ક્યોરીટાઇઝેશન અને રીકન્સ્ટક્શન ઓફ કાયનાનિસ્થલ એસેટસ અને એનફોર્સમેન્ટ ઓફ સિક્યોરીટી ઇન્ટરેસ્ટ એક્ટ , ૨૦૦૨ હેઠળ રચાયેલ સિક્યોરીટી ઇન્ટરેસ

એનફોર્સમેન્ટ) નિયમોના નિયમ ર(એ) હેઠળ નીચે સહી કરનાર **ચોલામંડલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાયનાન્સ કંપની લીમીટેડ** અહી પછી સિક્ચોર્ડ લેણદાર કહેવાયેલ છે • મદિકૃત અધિકારી છે. જે અન્વચે <mark>કોલમ (એ) માં જણાવેલ દેવાદારો/સહ -દેવાદારો/જમીનદારો કોલમ નં.(બી)માં જણાવેલ સુરક્ષીત મિલકત, કોલમ (સી) માં જણાવે</mark> લોનની તારીખ, કોલમ (ડી) માં જણાવેલ ખાતા નંબર કોલમ (ઈ) માં જણાવેલ લોનની રકમ કોલમ (એફ) માં જણાવેલ માંગણા નોટીસની તારીખ કોલમ (જી)મ ણાવેલ બાકી લેણાંની રકમ કોલમ (એચ)માં જણાવેલ એનપીએની તારીખ, આપેલ ટાઇટલ ડીડના જમા દ્વારા કોલમ (જી)માં કાનુની ગીરો લોનની બાકી વસુલાત મ ચાચો હતો.

વાદારોના લોન એકાઉન્ટોમાં લોનની રકમની પરત ચુકવણીના કિસ્સામાં કસુરના પગલે રીઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના નિર્દેશો અને માર્ગદર્શનો મુજબ સિક્યોર્ડ લેણદાં **ત્રોન પરફોમિંગ એસેટ કોલમ (એચ)** તરીકે વર્ગીકૃત કર્યો છે. પરિણામે, એક્ટની કલમ ૧૩(૨) હેઠળ કોલમ **(એફ)** માં જણાવેલ તારીખોએ દેવાદારોને નોટીસ પણ જારી કરા હતી 😚 બજવણી વગર પરત ફરી હતી. જણાવવાનું કે તમે સિક્યોરીટાઇઝેશન એક્ટની ક્લમ ૧૩ (૮) હેઠળ વેચાણની જાહેરાત પહેલા તમામ કોસ્ટ, ચાર્જ અને ખર્ચા સહીત સંપુર્ણ બાકી રકમ ચુકવીને સિક્યોર્ડ એસેટ પરત મેળવી શકો છો .

રોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને, સદરહું દેવાદારોને નોટીસની તારીખથી ૬૦ દિવસની અંદર અતિમ તારીખ સુધીના વ્યાજ, કોસ્ટ અને ચાર્જ સહીત ઉપર કોલ્ (૪૪)માં દર્શાવેલ સંપૂર્ણ બાકી રકમ ચુકવીને સિક્યોર્ડ લેણદાર તરફી તેમની સંપૂર્ણ જવાબદારીમાંથી છૂટકારો મેળવવા જણાવવામાં આવે છે, જેમાં નિષ્ફળ જતાં, લેણદ ક્યોર્ડ એસેટોનો કંબબો લેવા હકદાર ગણાશે અને કાયદા હેઠળ સિક્યોર્ડ લેણદારને પ્રાપ્ત આવી અન્ય કાર્યવાહી પણ કરી શકશે . સિક્યોર્ડ એસેટની તબદીલીની મંજુરં ાછી પણ બાકી રકમમાંથી સંપુર્ણ છુટકારો ન મળતા સિક્યોર્ડ લેણદાર લોન એગ્રીમેન્ટ મુજબ સોલ આર્બીટ્રેટર સમક્ષ દેવાદારો સામે પગલા લેવાનો અનામત હક ધરાવે વધુમાં , સદરહુ દેવાદારોને સિક્ચોર્ડ લેણદારની આગોતરી લેખીત મંજુરી વગર કોઇપણ રીતે દેવાદારોના નામ સામે કોલમ **(બી)** માં જણાવેલ સિક્ચોર્ડ એસેટનું વેચા હીત વ્યક્તિનું હિત સર્જવા અથવા અન્ય રીતે સોદો કરવાની મનાઇ ફરમાવામાં આવે છે. તારીખ : 03.૧૨.૨૦૨૪ નોંધ : વિવાદની સ્થિતીમાં આ નોટીસનો અંગ્રેજી અનુવાદ માન્ય ગણાશે. ચોલામંડલમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્સ કંપની લિમીટે



(Corporate Identification Number: L05005AP1992PLC014326)

Registered Office: Sy.No.782 to 1236, Ankulapatur Village, Chillakur Mandal, Tirupati District,Andhra Pradesh, 524 412; Tel: + 040-40102929; E-mail: vsfprojectsltd91@gmail.com; Website: www.vsfproject.com; Contact Person: Ms. Himabindu Nandigam, Company Secretary and Compliance Officer

REMINDER-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES ON WHICH FIRST AND FINAL CALL IS TO BE PAID (ISIN: 'IN9923K01012')

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), read with relevant rules made thereunder, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated 25th May, 2024, the Reminder-Cum Forfeiture Notice along with the instructions and Payment Slip has been sent in electronic mode to the holders of partly paid up equity shares whose e-mail addresses are registered with the Company or its Registrar and Transfer Agent ("RTA") or Depository Participant ("DP") as on the First and Final Call Record Date i.e., 6th September, 2024. Further physical copy of the First Reminder-Cum-Forfeiture Notice along with instructions and Payment Slip, has been dispatched through permitted modes at registered address of those shareholders; a) who have not registered their e-mail address with the Company or its RTA or DP; or b) who have specifically registered their request for the hard copy of the same. The Company has completed the dispatch of the Reminder-Cum-Forfeiture Notice on 4th December, 2024.The Reminder-Cum-Forfeiture Notice is being sent to the holders of those partly paid-up equity shares (Shareholders), who have not paid the first and final call money.

The Board of Directors of the Company, at its meeting held on 12th November, 2024 approved the sending of Reminder-Cum-Forfeiture Notice for the payment of first and final call amount of Rs. 25/- per partly paid-up equity share (comprising of Rs. 5/- towards face value and Rs. 20/- towards Securities Premium) ("Reminder-Cum-Forfeiture Notice") to the holders of such partly-paid up equity shares on which the First and Final Call Money remains unpaid for payment of such unpaid First and Final call.

The details of the payment are as follows:

Payment Period	From	То	Duration
i ayınıcını i ciribu	Friday, 6th December, 2024	Friday, 20th December, 2024	15 Days
Mode of payment	Demand Draft (to be submitted to our Registrar Purva Sharegistry (India) Private Limited at Unit no. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai - 400 011, Maharashtra, India Telephone +91 22-3522 0056, email: newissue@purvashare.com	VSF Projects Limited – First and Final C (for resident & Non-resident sharehold	•

The shareholders while making payment through demand draft, should state full name of the sole/ first joint applicant, first reminder-cum-forfeiture notice no., DP ID/ Client ID no. in the payment slip and the duly filed up payment slip must be presented at Axis Bank Limited on or before Friday, 6th December, 2024. Shareholders are requested to note that failure to make the First and Final Call money payment on or before Friday, 20th December, 2024 shall render the partly paid-up equity shares of the Company liable to be forfeited in accordance with the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer

(ii) The trading of the party paid-up equity shares of the Company bearing ISIN: IN9923K01012, has been suspended by the Stock Exchanges effective from Friday, 6th September, 2024 onwards

(ii) The process of corporate action for converting the Partly Paid-up Equity Shares to Fully Paid-up Equity Shares under the present ISIN: INE923K01014 for the existing fully paid-up ordinary shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed within 2-3 weeks from the last date of payment of the first call money stipulated under this notice. Upon completion of the corporate action, the Partly Paid-up Equity shall be converted into Fully Paid-up Equity Shares and would be credited to ISIN: INE923K01014 allotted by the NSDL/CDSL.

The specimen copy of the Reminder-Cum-Forfeiture Notice along with the instructions and Payment Slip is available on the Company's website at https://www.vsfproject.com/rightissue.html on the website of Registrar's:https://www.purvashare.com/. In such a case, however, the shareholder need to fill the DP ID-Client ID, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the First and Final Call Money. The notice is also available on the website of BSE at www.bseindia.com.

All correspondence in this Regard may be addressed to:



PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED Address: Unit no. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai - 400 011, Maharashtra, India; Tel: +91 22-3522 0056 / 4961 4132 Investors Grievance E-mail:newissue@purvashare.com; Website:www.purvashare.com;

Contact Person: Ms. Deepali Dhuri SEBI Registration Number: INR000001112

For **VSF PROJECTS LIMITED**

Date: 04-12-2024 Place: Hyderabad

Himabindu Nandigam

Company Secretary and Compliance Officer

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने रेलवे के निजीकरण की आशंका जताई

नई दिल्ली, 4 दिसंबर (ब्यूरो)।

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने रेलवे के निजीकरण की आशंका जताते हुए बुधवार को कहा कि यात्री किराया, सुविधा व सुरक्षा पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए।

वहीं, भाजपा और सहयोगी दलों के सांसदों ने

कहा कि इस सरकार में रेलवे में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा में रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के मनोज कुमार ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से रेलवे की स्वायत्तता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इससे रेलवे के निजीकरण की संभावना बढ़ेगी।

कुमार ने कहा कि रेल अधिनियम 1989 में शामिल सारंगी ने कहा कि यह विधेयक भारतीय रेल में होने वाले नए प्रावधानों से निजीकरण का रास्ता साफ हो सकता है और रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंपा जा सकता है। उन्होंने कहा कि निजी लोग आएंगे तो मनमानी करेंगे और यात्री किराया बढ़ सकता है। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद अपराजिता

व्यापक सुधार और आधुनिकीकरण के लिए लाया गया है और इससे रेलवे की पूरी व्यवस्था में सुधार होगा। भाजपा सदस्य रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश को परातन काननों से मुक्ति दिलाई जाएगी और यह विधेयक उसी क्रम में लाया गया है।

पुंछ में एक सैन्य चौकी पर आतंकियों ने दागे हथगोले

जम्मू, ४ दिसंबर (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार तड़के आतंकवादियों ने एक सैन्य चौकी पर दो ग्रेनेड दागे जिनमें से केवल एक में विस्फोट हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं, सुरक्षाबलों ने

श्रीनगर के दाचीगाम जंगल में आतंकवादियों की तलाश बुधवार को भी जारी रखी जहां एक दिन पहले हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया था।

उनके सुरक्षाबलों ने अनुसार, आतंकवादियों की धरपकड के लिए तलाश अभियान शुरू किया है।

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिभिटेड निगमित कार्यालय: सं. 167–169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015 शाखा कार्यालय: ए.के. टॉवर, 56, सुभाष मार्ग, एम.के.पी. चौक के पास, देहरादून–248001 ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com

आरएलएम श्री बृजेश अवस्थी— 9918301885, सीएलएम सुश्री अंशिका राणा— 8750568111, आरआरएम श्री पुष्कर अवस्थी— 9453043399, सीआरएम जनेश्वर प्रसाद— 9917778324
वित्तीय परिसंपतियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम
2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना
हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से निम्न उल्लिखित ऋणधारकों / गारंटरों द्वारा प्राप्त किये गये ऋणों के संबंध में, जो कि निम्नांकित तिथियों पर बकाया निम्नांकित शेष राशि के साथ एनपीए बन गये हैं। हम ने पहले ही वित्तीय परिसंपतियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्नांकित तिथि के अनुसार विस्तृत मांग सूचना पंजीकृत हाळा / स्पीड पोस्ट / कृरियर द्वारा आपको देय पावती के साथ निर्गत की थी, जो बिना वितरित हुये वापस आ गयी है / पावती प्राप्त नहीं हुयी है। हम ने उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आप में से किसी एक के स्वामित्व वाली प्रतिमृतियों को अपने अधिग्रहण में लेने का अपना इरादा वशीया है, जब यदि आप 60 दिनों की समयाविध में निम्न जिल्लिखित राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं। यदि आप यहां इसमें ऊपर उल्लिखितानुसार दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, तो बैंक / प्रतिभृत ऋणदाता सरफॉएसि अधिनियम के धारा 13(4) के अंतर्गत प्रकाशित करते समय, बैंक / प्रतिभृत ऋणदाता आपका वित्र भी प्रकाशित कर सकते हैं। विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :-

क्र.	शित कर सकत है। विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :- ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/गारंटरों	मांग सूचना तिथि	प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण
सं. 1.	के नाम तथा एनपीए की तिथि श्री मोना रानी, श्री शिव कुमार, सभी यहां के निवासी हैं:	बकाया राशि माँग सूचना तिथि :	भूमि के प्लॉट पर निर्मित एक मकान, पूर्व में 43 फीट, पश्चिम में 43 फीट,
	पनियाला रोड शिवपुरम हरिहार उत्तराखंड, रूडकी, सेमीअर्बन, रूड़की, उत्तराखंड, भारत–247667 खाता संख्या DL/RUK/ROCA/A000000037 ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है		चत्तर में 16.8 फीट और दक्षिण में 16.8 फीट, कुल क्षेत्रफल 722.4 वर्ग फीट या 67.13 वर्ग मीटर और कवर्ड एरिया 1020 वर्ग फीट या 93.868 वर्ग मीटर, खसरानों के भाग से संबंधित, 123, ग्राम रहीमपुर (नगर निगम रुड़की की सीमा के भीतर) परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित।
2.	भी रवि दत्त, श्री प्रीति रवि दत्त, श्री कवि दत्त धीमान, सुश्री सुशीला देवी, सुश्री उमा राजकुमार, सभी यहां के निवासी हैं : मकान नं. 177, गली नं.—1, कुम्हारों वाली गली सुभाष नगर रुड़की, रुड़की, सेमिअर्बन, रुड़की, उत्तराखंड, भारत—247667	माँग सूचना तिथि : 18.11.2024 	भूमि के प्लॉट पर निर्मित एक मकान, पूर्व में माप:— 30 फीट पश्चिम में:— 30 फीट उत्तर में:— 40 फीट दक्षिण में:— 40 फीट कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट, खसरा संख्या— 52एमआई के भाग से संबंधित, ग्राम शेखपुरी, भार सीमा नगर पालिका ठड़की (वर्तमान में नगर निगम ठड़की की सीमा में) परगना और तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित है।
	खाता सं. DL/RUK/ROKE/A00000074 ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	16.11.2024 तक + ब्याज + कानूनी शुल्क माँग सूचना तिथि :	भूमि के एक भूखंड पर निर्मित एक मकान, जिसका माप पूर्व में 27 फीट
3.	श्री श्याम लाल, सुश्री सीमा रानी, श्री अमन पवार, सभी यहाँ के निवासी हैं : मकान नं. 14 ओसपुर हरिद्वार, सेमिअर्बन, रुड़की, उत्तराखंड, भारत–247671 खाता संख्या DL/RUK/ROKE/A000000157 ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया	18.11.2024 ————————————————————————————————————	नून पर पर नूजा वर सामान एक निर्माण कार्य मुंब के दिला में दें आहे. 6 इंच, पिक्रम में 27 फीट 6 इंच, पिक्रम में 27 फीट 6 इंच, पिक्रम में 21 फीट 10 इंच, पिक्रम में 21 फीट 10 इंच है, कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट या 55.76 वर्ग मीटर है, जो ग्राम पाडली गुज्जर परगना और तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित खसरा संख्या—458मील के माग से संबंधित हैं।
4.	श्री संतर पाल, श्रीमती लक्ष्मी देवी, सभी यहां के निवासी हैं : ग्रीन कॉलोनी, पानी की टंकी के पास, ग्राम— आनेकी हेतमपुर, रविदास मंदिर के पास, हरिद्वार, उत्तराखंड, 249402	+ कानूनी शुल्क माँग सूचना तिथि : 	भूमि पर निर्मित एक मकान, पूर्व में मापः -41 फीट पश्चिम में: -41 फीट उत्तर में: - 19 फीट 4 इंच दक्षिण में 19 फीट 4 इंच कुल क्षेत्रफल 792 53 वर्ग फीट या 73.855 वर्ग भीटर, खसरा संख्या-909 के भाग से
_	खाता संख्या DL/RUK/ROKE/A000000173 ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है श्री अफजल अहमद, श्रीमती दिलरुबा अफजल अहमद, समी यहाँ के	बकाया राशि रु. 10,17,475 / — 16.11.2024 तक + ब्याज + कानूनी शुल्क माँग सूचना तिथि :	संबंधित, ग्राम आनेकी हेत्तमपुर परगना रुड़की तहसील और जिला हरिद्वार में स्थित है। मृमि के भूखंड पर निर्मित एक मकान, जिसका माप पूर्व में 68 फीट 6
5.	निवसी हैं: ग्राम टिकोल्ला कला, पाडली गुज्जर तेलीवाला, माल गोदाम के पास परगना तहसील रूडकी जिला हरिद्वार— 247670 ———————————————————————————————————	18.11.2024 ————————————————————————————————————	इंच, पश्चिम में 68 छीट 9 इंच, उत्तर में 39 फीट 8 इंच और दक्षिण में 34 फीट 11 इंच हैं, कुल क्षेत्रफल 2522 337 वर्ग फीट या 234417 वर्ग मीटर, ज्ज्ञै खसरा संख्या 235एमआई और 236एमआई के माग से संबंधित, प्राम पाडली गुज्जर (नगर पंचायत पाडली गुज्जर की सीमा के मीतर)
6.	ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है सुश्री सुमन संजय कुमार, श्री संजय कुमार, सभी यहां के निवसी हैं: हरपाल इस्लामनगर रोड, सबदलपुर शिवदासपुर, सहारनपुर, अर्घशहरी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, मारत — 247001	+ कानूनी शुल्क माँग सूचना तिथि : 18.11.2024	परगना और तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित है। एक भूखंड, जिसका माप पूर्व में 50 फीट, परिचम में 50 फीट, उत्तर में 20 फीट और दक्षिण में 20 फीट है, कुल क्षेत्रफल 111.11 वर्ग गज या 92.90 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 521/3 और प्राइवेट प्लॉट संख्या
	खाता संख्या DL/RUK/ROKE/A000000257 ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	बकाया राशि रु. 6,74,294 / — 16.11.2024 तक + ब्याज + कानूनी शुल्क	23 के भाग से संबंधित है, जो गांव मानकमऊ प्रगना और तहसील और जिला सहारनपुर दार आबादी कृष्ण विहार एक्सटेंशन कॉलोनी सहारनपुर में स्थित है।
7.	सुश्री गगन त्यागी, श्रीमती मानषी गगन त्यागी, सभी यहां के निवासी हैं : चुदियाला मोहनपुर हरिद्वार, हरिद्वार, सेमीअर्बन, रूड़की, उत्तराखंड, भारत — 247661 खाता संख्या DL/RUK/ROKE/A000000295	माँग सूचना तिथि : 18.11.2024 बकाया राशि रु. 23,94,035/—	मूमि के मूखंड पर निर्मित एक मकान, जिसका माप पूर्व में 20 फीट, परिशम में 20 फीट, उत्तर में 54 फीट 5 इंच और दक्षिण में 53 फीट 2 इंच है, कुल क्षेत्रफल 1075.82 वर्ग फीट या 99.98 वर्ग मीटर और 1200 वर्ग फीट या 111.52 वर्ग मीटर है, जो खाता संख्या 13 खसरा सं, 57के एमआई के माग् से संबंधित, ग्राम रायपुर परगना तथा तहसील भगवानपुर
8.	ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है श्री लिलत कुमार, श्रीमती सोनिका लिलत कुमार, सभी यहां के निवासी हैं : बुङ्घा खेड़ा अहीर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश,	16.11.2024 तक + ब्याज + कानूनी शुल्क माँग सूचना तिथि : 29.11.2024	जिला हरिद्वार में स्थित है। एक भूखंड, निजी भूखंड संख्या 7 और 6 का भाग, पूर्व में 30 फीट पश्चिम में 30 फीट उत्तर में 30 फीट दक्षिण में 30 फीट जिसका कुल क्षेत्रफल
	भारत — 247667 खाता संख्या DL/RUK/ROKE/A000000344 ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	बकाया राशि रु. 6,73,703 / — 29.11.2024 तक + ब्याज + कानूनी शुल्क	900 वर्ग फीट या 83.84 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 440 के भाग से संबंधित है, बड़ा मदरसा रायपुर तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार के पास वाली शाकुंभरी विहार कॉलोनी में स्थित है।
9.	श्री प्रवीण कुमार, श्रीमती नीलम सिंह, सभी यहाँ के निवासी हैं: प्रीत विहार, सेक्टर रोड, मौजा गणेशपुर बहार हदूद परगना, महाराज गार्डन के पास, रुड़की, उत्तराखंड, 247667 ——————————————————————————————————	माँग सूचना तिथि :	सूमि के भूखंड पर एक निर्मित मकान, पूर्व में 25 फीट, पश्चिम में 25 फीट उत्तर में 28 फीट और दक्षिण में 18.67 फीट कुल क्षेत्रफल 533.375 वर्ग फीट या 48.57 वर्ग मीटर और कवर्ड एरिया 1100 वर्ग फीट या 102.230 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 153एमआई के भाग से संबंधित, ग्राम गणेशपुर बहार हदूद, (वर्तमान में नगर निगम रुड़की की सीमा के मीतर) परगना और तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित है।
10.	श्री नरेंद्र कुमार, श्रीमती गीता, सभी यहाँ के निवासी हैं : मोहल्ला चौधरियान, मधु विहार, गंगोह— सहारानपुर रोड, ग्रीन कंप्यूटर के पास, नकुड़, उत्तर प्रदेश, 247342 खाता संख्या DL/SHR/SHRP/A000000270 ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया	माँग सूचना तिथि :	एक आवासीय भूखंड, निजी भूखंड संख्या-8, भूमि का कुल क्षेत्रफल 142 58 वर्ग गज या 119.21 वर्ग मीटर है, जिसकी माप पूर्व में 32 फीट, पश्चिम में 24 फीट, उत्तर में 35 फीट 4 इंच और दक्षिण में 56 फीट 4 इंच है, खसरा संख्या-588 के भाग से संबंधित, नकुर बहार हदूद, परगना और तहसील- नकुर, जिला सहारनपुर में स्थित है।
11.	गया है श्री सुरेन्द्र कुमार, श्रीमती कुसुम, श्री शुभम कुमार, सभी यहां के निवासी हैं : मकान नंबर 13 मोहत्ला जट्टान	+ कानूनी शुल्क माँग सूचना तिथि : 22.11.2024	एक आवासीय मकान, डबल स्टोरी, मकान संख्या—2843, भूमि का कुल क्षेत्रफल 228.8 वर्ग गज, जिसका माप पूर्व में 28 फीट 6 इंच, पश्चिम में 28 फीट 6 इंच, उत्तर में 72 फीट, दक्षिण में 72 फीट, मोहल्ला नूर
	पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत-251327, ऋण खाता संख्या DL/SHR/SHRP/A000000273 ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	बकाया राशि रु. 17,45,131 / — 29.11.2024 तक + ब्याज + कानूनी शुल्क	नगरियान, वात्मीकि बस्ती, कस्बा पुरकाजी ग्रामीण, परगना, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर में स्थित है।
12.	श्री रवि चावला, श्रीमती सोनिया चावला, सभी यहाँ के निवासी हैं : मकान नं. 88 लेन नंबर 2, राम नगर, रुड़की, उत्तराखंड, भारत — 247667 — खाता संख्या DL/SHR/SHRP/A00000375	माँग सूचना तिथि : 29.11.2024 ———————————————————————————————————	एक आवासीय मूखंड, भूमि आकार में कुल क्षेत्रफल 1450 वर्ग फीट या 134.78 वर्ग मीटर, जिसका आयाम पूर्व में — 35 फीट पश्चिम में — 50 फीट जत्तर में — 32 फीट दक्षिण में — 22 फीट है जो खसरा संख्या 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1 और 1847 के स्त्राग से संबंधित, नगर निगम सीमा रुड़की, परगना— मगवानपुर,
13.	ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है श्री शीशपाल सिंह, श्रीमती कमलेश देवी, सभी यहां के निवासी हैं	29.11.2024 तक + ब्याज + कानूनी शुल्क माँग सूचना तिथि :	ताइसील— रुड़की जिला हरिद्वार के अंतर्गत ग्राम— सलेमपुर राजपुतान में स्थित है। खसरा संख्या 303 वाला एक आवासीय मकान, जिसका कुल क्षेत्रफल
	: बड़गांव, ग्राम खुदाबक्सपुर, नानोता सहारनपुर, महाकाल मंदिर के पास, उत्तर प्रदेश, भारत— 247452 ————————————————————————————————————	29.11.2024 बकाया राशि रु. 5,53,009 / — 29.11.2024 तक + ब्याज	138.67 वर्ग मीटर है, जो ग्राम खुदाबक्शपुर, तहसील रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर में स्थित है।
14.	गया है श्री विनोद कुमार शर्मा, श्रीमती मनीषा शर्मा, श्री अक्षत भारद्वाज, सभी यहां के निवासी हैं : धर्मावाला प्रतीतपुर रोड देह, ग्रामीण, देहरादून, उत्तराखंड, भारत — 248142	+ कानूनी शुल्क माँग सूचना तिथि : 29.11.2024 	एक आवासीय मकान जो मौजा बाबूगढ़, परगना पछवादून, तहसील— विकासनगर और जिला देहरादून में स्थित है, जिसका खाता संख्या 0580 और खसरा संख्या 6745 पर, भूमि क्षेत्रफल 1230 वर्ग फुट, कुल आवृत्त क्षेत्रफल 2130 वर्ग फुट।
15.	खाता संख्या UT/UTK/DHON/A000001451 ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है श्री ज्ञान सिंह, श्रीमती अंजना अंजना, सभी यहां के निवासी हैं:	रु. 36,66,630 / - 29.11.2024 तक + ब्याज + कानूनी शुल्क माँग सूचना तिथि :	
	आदुवाला परगना पछवादून, विकासनगर देहरादून, ग्रामीण, देहरादून, उत्तराखंड, भारत– 248198 ———————————————————————————————————	29.11.2024 बकाया राशि रु. 22,60,420 / — 29.11.2024 के अनुसार +	भौजा आदुवाला, तहसील— विकासनगर, जिला देहरादून में स्थित एक भूखंड, खाता संख्या 292, खसरा संख्या 427, कुल क्षेत्रफल 165.98 वर्गमीटर।
16.	ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है श्री विक्रांत कुमार, श्री कौशल कौशल, सभी यहां के निवासी हैं. 18 बी–ब्लॉक नेहरू कॉलोनी देहरादून, नेहरू कॉलोनी देहरादून, शहरी, देहरादून, उत्तराखंड, भारत– 248001	ब्याज + कानूनी शुल्क माँग सूचना तिथि :	भूमि खाता संख्या 01836 (फरली वर्ष 1416 से 1421 के अनुसार), खसरा संख्या 805, क्षेत्रफल 141.03 वर्ग मीटर, मीजा— नकरौंदा, परगना परवादून, तहसील और जिलां देहरादून में स्थित है।
4=	खाता संख्या UT/UTK/DHON/A000000456 एवं DL/RUK/ROKE/A000000178 और UT/UTK/DHON/A000000875	29.11.2024 तक + ब्याज + कानूनी शुल्क	
17.	ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है श्री सागर सोदेव, श्रीमती पुषमा, श्री गुड्ख गुड्ख सभी यहां के निवासी हैं: वार्ड नं. 9, विकासनगर, देहरादून 248198, उत्तराखंड खाता संख्या UT/UTK/DHON/A000001	माँग सूचना तिथि :	प्लॉट की खतौनी नं. 00383, खसरा नंबर 2226, रकबा प्रांगण पछवादून, विकासनगर, शहरी, देहरादून, उत्तराखंड 248198
18.	ऋण खातों को 06.03.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है श्री शुभम शर्मा, श्री मुनेश देवी, सभी यहां के निवासी हैं : ग्राम जगजीतपुर, कनखल, फुटबॉल मैदान के पास, हरिद्वार, जनसम्बद्ध 249408	10.03.2024 तक + ब्याज + कानूनी शुल्क माँग सूचना तिथि : 	ग्राम— जमालपुर कलां, परगना ज्वालापुर, तहसील हरिद्वार, उत्तराखंड 249408
	खाता संख्या UT/UTK/DHON/A000000116 ऋण खातों को 06.03.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	बकाया राशि रु. 3,16,703 / — 10.03.2024 तक + ब्याज + कानूनी शुल्क	
उपर्य	क्त ऋणधारकों / गारंटरों को सलाह दी जाती है कि (1) अधिक तथ	था पर्ण विवरणों के लिये अधोह	स्ताक्षरकर्ता से मूल सूचना प्राप्त करें तथा (2) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत

उपर्युक्त ऋणधारकों / गारंटरों को सलाह दी जाती है कि (1) अधिक तथा पूर्ण विवरणों के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता से मूल सूचना प्राप्त करें तथा (2) सरफंसी अधिनियम के अंतर्गत भावी कार्रवाई से सुरक्षित रहने हेतु उपरोक्त संदर्भित सूचना की तिथि से 60 दिवसों की समयावधि में शेष बकाया राशि का व्याज तथा लागतों, इत्यादि सहित भुगतान करें।

प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

दिनाँक : 05—12—2024, स्थान : उत्तराखंड

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA



SCANPOINT GEOMATICS LIMITED

Corporate Identification Number: L22219GJ1992PLC017073

Our Company was originally incorporated as 'Scanpoint Graphics Limited' at Ahmedabad as a public limited company under the Companies Act, 1956 and was granted the certificate of incorporation on February 07, 1992. Thereafter, our Company was granted the certificate of commencement of business dated March 06, 1992. Subsequently, pursuant to a special resolution of the shareholders dated September 10, 2007 passed in the 15th AGM of the Company, the name of our Company was changed to 'Scanpoint Geomatics Limited' vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated April 22, 2008 issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. For details of change in the name and address of Registered Office of our Company, please see the chapter titled "General Information" beginning on page 38.

Registered Office: D-1016-1021, 10th Floor, Swati Clover, Shilaj Circle, S.P. Ring Road, Shilaj, Ahmedabad, Daskroi, Gujarat, India, 380059 Telephone: +91 07949391735; Email: cs@sgligis.com

Contact Person: Krishna Bhavsar, Company Secretary and Compliance Officer; Email: cs@sgligis.com; Website: www.sgligis.com

Corporate Identification Number: L22219GJ1992PLC017073

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER ("LOF") DATED NOVEMBER 28, 2024 OUR PROMOTERS: RAMESHCHANDRA SOJITRA, CHIRAG JAYANTILAL SONI, VAACHA SOJITRA, VISHWAS RAMESHCHANDRA SOJITRA, LEELAVANTI R SOJITRA AND RAMESHCHANDRA K SOJITRA HUF

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SCANPOINT GEOMATICS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY ISSUE OF UP TO 8,23,72,552 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹6/- EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹04/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT OF ₹4942 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE IGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 49 (FORTY NINE) RÍGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 100(HUNDRED) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON NOVEMBER 27, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 3 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 101 OF THIS LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription

This is with reference to LOF filled with the BSE and dispatched to the Shareholders of the company through E-mail and courier. Potential Shareholders may note the following 1. Under the section titled "DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS" beginning from printed page no. 04 (pdf page 7) of the LOF, titled "Issue / the Issue / this Issue / Rights ssue"; the words should be read as Issue upto 8,23,72,552 Rights Equity Shares for cash at a price of ₹ 6/- per Rights Equity Share (including a share premium of ₹ 4/- per Rights Equity Share) instead of Issue upto 8,23,72,552 Rights Equity Shares for cash at a price of ₹ 5/- per Rights Equity Share (including a share premium of ₹ 3/- per Rights

Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in Letter of Offer of SCANPOINT GEOMATICS LIMITED (The Company). The shareholders/investors of the company are requested to not the amendments with respect to and in connection with LOF. The corrigendum is filed with BSE and will be available on the website of www.bseindia.com. And on the website of the company i.e. www.sgligis.com

REGISTRAR TO THE ISSUE LEAD MANAGER TO THE ISSUE WEALTH MINE Networks Pyt. Ltd. dill **WEALTH MINE NETWORKS PRIVATE LIMITED** LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083. 215 B, Manek Centre, PN Marg, Jamnagar, Gujarat-361001. Telephone: + 7778867143 Telephone: + 91-810 811 4949; Email: wealthminenetworks@gmail.com Email: scanpoint.rightsaugust2024@linkintime.co.in Website: www.wealthminenetworks.com Website: www.linkintime.co.in Investor Grievance Email: wealthminenetworks@gmail.com Investor Grievance Email: scanpoint.rightsaugust2024@linkintime.co.in Contact Person: Mr. Jay Trivedi Contact Person: Ms. Shanti Gopalakrishnan SEBI Registration Number: NM000013077 SEBI Registration Number: INR000004058 CIN: U93000GJ1995PTC025328 CIN: U67190MH1999PTC118368

This corrigendum is issued and published as per the instruction and direction of the office of BSE limited dated December 4, 2024. Note: All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Letter of Offer.

For, SCANPOINT GEOMATICS LIMITED Sd/-

Krishna Bhavsar

Company Secretary and Compliance Officer

वूनियन बैंक	IJ١		of tests	बग	लरु - 560 04		ट बस स्टॉप के सामने, : 90032 23669,		सं. 5665	(6-2)		27/716(7-15), 26/711/1(5-7), 267/		OH 21(8-0),	
2000	•	717	रफेसी अधिनियम की १	मेल आईडी: <u>a</u>	rb.bengalur	runorth@	unionbankofindia.b	<u>oank</u>	दिनांक 17/10/13 कुल	(198-2)		30//1(8-0) में शा (84-13)				(113-9)
	विर्त्त	य परिसंपत्ति	त्तेयों के प्रतिभृतिकरण औ	रि पुनर्निर्माण तः	या प्रतिभृति वि	हित प्रवर्तन	न अधिनियम,			24.7625 एर पत्ति-II: क	_	(10.58125 एकड़ मस्त भाग, क्षेत्रफल लगभग 230 कनाल 8.496 म		त 28.803 एक	ड. गांव फिरो	(14.18125 एकड़ जपर, तहसील एवं जि
इम, यनियन बैंक आं	ॉफ इंडिया ने		2 की धारा 13(3) के स स्तियों के प्रतिभृतिकरण					2 की धारा 13(2) के	पलवल, हरियाणा में स्थि	त है, जिसक	ा विवरण निम्न	नुसार है: डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्र				
अंतर्गत बैंक को दिए	गए पतों पर	पावती देय	(आरपीएडी) के साथ	नीचे उल्लिखित	के अनुसार	पंजीकृत	डाक द्वारा मांग सूच	ना जारी की थी। चूँकि	सर्विसेज प्राइवेट लिमिटे बिक्री/विनिमय विलेख			भूमि माप (के-एम)	स्पष्ट	स्वामित्व भूमि (के	-एम) अस्तिकारि	वत स्वामित्व भूमि (के-
			कारण/आरपीएडी द्वारा धं त नहीं की जा सकी। इस						(i) विनिमय विलेख सं		(7-18),	कुल (39-12) यानी 21//9(एम), 12/1(1-	1),	2. ((1) Glidelli	(7-18)
गी। उक्त नोटिस की							62 16		दिनांक 27/09/13 (ii)विनिमय विलेख सं	4706		(3-5), 23//1(8-0), 2/1/1(1-12), 24// 6/1/1 (1-2), 28//2/4(2-0), 9/1(0-				
			गम और पता (1) डिस्ट्रीब्र् विले पार्ले ईस्ट, मुंबई-40						दिनांक 13/09/13 विनिमय विलेख स	5647		(2-0), 45//7(8-0), 8/1/(0-10) में शारि 10) में से (3-0) यानी 33/79/2 (6-12), 1				(3-0)
फ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि	मिटेड। कॉपोर्रे	ट कार्यालयः	यूनिट नंबर 410, ए, 4, फ इव लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्	लोर वेलडन टेक	पार्क, सोहाना	ा रोड, सेक्ट	टर 48, रेवेन्यू एस्टेट उ	ऑफ टिकरी, बादशाहपुर,	दिनांक 13/07 वंधक (10-18) वानी (1	/13		3/1(0-8), 18/2/2 (0-2), तथा 19(8-0)				
			इव लाजास्टक्स एड इफ्रास् बिर- 61, रहेजा आर्केड, रे						हेतु कुल भूमि	माप					(10-	18) (1.3626 एव
			स्ट्रक्चर (प्रा.) लिमिटेड, दे ट मुंबई-400 057, महाराष						देशपाल लॉजिस्टिक्स बिक्री/विनिमय वि			ट लिमिटेड के स्वामित्व में भूमि माप (के-एम)			arfirm	जित स्वामित्व भूमि (के
न, नई दिल्ली-110	016 (गारंटर/	बंधककर्ता)	साथ ही : फ्रेटस्टार प्रा	इवेट लिमिटेड, '	113, प्रथम त	तल, श्याम	कमल बी सोसायटी,	27, तेजपाल रोड, विले	(i) बिक्री विलेख स	.2435 दिनांव	19/06/08	मून नाप (क-एन) कुल (24-0) में से (15-12) यानी	स्यष्ट	ट स्यामित्व भूमि (रे	p-fa) alam	(15-12)
			(5) डिस्ट्रीब्यूशन एंड लो स -11328, मॉरीशस गण						(ii) विनिमय विलेख स (iii) विक्री विलेख			32//15(8-0), 16(8-0) तथा 337/20(3-0)			
			रबेने एस्प्लेनेड, 24 साइबर						(i) बिक्री विलेख :	157 दिनांक	26/08/08	(24-14) यानी 32//12/3(1-5), 13(1 14(8-0),17(7-9)	र्म),	(24-14)		
		ı	[कर्जदार द्वारा प्राप्त ऋष् । ।	ण सुविधाओं ⁄७	हणों का वि ।	व्रवरण]			(i) बिक्री विलेख सं.			(16-18) यानी 24//1 (7-13)		-05) बानी 41/		
	,	सीमा	31/03/2024 तक बकाया	अनरिकवर्ड ब्याज	डमी ब (राशि स		कुल ब्याज (अनरिकवर्ड ब्याज	कुल बकाया (31/03/2024 तक	(ii) बिक्री विलेख सं. (i) विनिमय विलेख			41//8/2 (7-2), 11/1(2-3) (17-17) बानी (23-16) का ¾ हिस्सा, 347,	-	(72), 11/(2- (17-17)	3)	
सुविधा	(राशि	कि. में)	(राशि रु. में)	(राशि रु. में)	(41141 4	۵. ۹)	+ डमी ब्याज)	+ कुल ब्याज)	(ii) विनिमय विलेख (i) विक्री विलेख सं			(4-8), 19(8-0), 23/1(5-5), 41//3/1(6) कुल (22-10) में से (7-9) यानी 33//	-3)			(7-9)
सावधि ऋण	63,52	.00,000/-	65,73,32,750/-	5,02,23,817/-	12,05,00,	,541.85	(राशि रु. में) 17,07,24,358.85	(राशि रु. में) 82,80,57,108.85	(ii) बिक्री विलेख स	. 936 दिनांव	18/05/09	(6-12), 12/1(7-8), 13/1(0-8),				(7-7)
56082100017568 सावधि ऋण		.00,000/-	20,36,61,000/-	58,90,658/-	5.71.44.4	481.82	6,30,35,139.82	26,66,96,139.82	(iii) विनिमय विलेख विनिमय विलेख सं.			18/2/2(0-2) and 19(8-0) (11-3) यानी (7-13) यानी (15-5) का ¾	यानी			(11-3)
56082100017569	91											21/725/2 (40), 16/1/2(2-17), 16/2 (4 17/1(3-15) तथा 22//21(8-0) में से (3-	-13),			
एफआईटीएल 56082100017570	05	.00,000/-	9,24,34,285.79	25,69,747.50			2,75,07,991.10	11,99,42,276.89	विनिमय विलेख सं.	9998 दिनांक	22/03/12	(7-13) यानी 41//12(7-13)		(7-13)		
एफआईटीएल 0438263500000	12,07	.00,000/-	8,03,54,491/-	0	2,48,03,	121.30	2,48,03,121.30	10,51,57,612.30	बंधक (93-13) र हेतु का	ानी (11.706 न भूमि माप	3 एकड़)		(5	9-09) (7.4 एकड़)	313 (844) (4.2750 एकड़
सावधि ऋण 5608210001896	15,09	.00,000/-	15,09,59,250/-	1,88,79,226/-	2,95,24,0	077.74	4,84,03,303.74	19,93,62,553.74	फ्रेट स्टार प्राइवेट ि	नमिटेड के		†				
एफआईटीएल	3,62,	00,000/-	2,12,53,741/-	5,71,051.80	52,16,8	71.01	57,87,922.81	2,70,41,663.81	बिक्री/विनिमय विल	खिसं. तश	या तिथिय	भूमि माप (के-एम)			स्यष्ट स्वामि भूमि (के-एग	
56072600000184 एफआईटीएल	2,18,	00,000/-	1,57,72,528/-	0	24,39,1	189/-	24,39,189/-	1,82,11,717/-	बिक्री विलेख सं. 82	दिनांक 03/0		15-12) यानी (5-19) यानी (23-16) का		34/718/2	(15-12)	
02212635000000		9,00,000/-	1,22,17,68,045.79	7,81,34,500/-	26,45.66.	,526.32		1,56,44,69,072/-	L			(4-8), 19(8-0), 23/1(5-5), 41/73/1 (34//20/1(1-13),417/2/1(3-0),	2/2(5-0))		
	1,20,7		ल देयता राशिः 31.03.					1,30,44,07,0727	बिक्री विलेख सं. 241			(12-17) बानी 417/11/2/1(4-17) व			(12-17)	(12-12)
(रुपये एक र		ल दयता साश: ३1.03. करोड़ चौवालीस लाख					त ।	(i) बिक्री विलेख सं. 19 (ii) बिक्री विलेख सं. 3	035 दिनांक	31/05/12 1	कुल (39-12) में से यानी 21//9(8-0 3/1/2/2(3 5), 23//1 (8-0), 2/1/1(1-			(0-15)	(12-12)
नपीए तिथि: 13.06	5.2023			_				दिनांक: 15.10.2024	(iii) बिक्री विलेख सं. : (iv) बिक्री विलेख सं. :			6/171(1-2), 28//2/4(2-0), 971(0-2) 45//7(8-0), 8/1(0-10) and (0-15				
		मांग ि यां ।	(भाग ग. 1) संश्रास गांग	ਹਿਤ ਕਰ ਕਰਤਾ ਆ	יו בניו דוווים		200-21 TOO 100 '	क्रमान २ मारिया गानी								(7-14)
ए) पलवल (हरिय 24.7625 एकड़, गांव	ाणा) में स्थित इ फिरोजपुर,	तहसील औ	(भाग ए-1) बंधक संप र जिला पलवल, हरियाण	ग में स्थित, विव	ारण निम्नानुर	सार है: डि	स्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिब		(i) बिक्री विलेख सं. 1			(22-10) 菲 祐 (7-14), 33//9/2(6-1				
(ए) पलवल (हरिय 24.7625 एकड़, गांव लेमिटेड (पूर्ववर्ती में	ाणा) में स्थित व फिरोजपुर, वेसर्स विक्रम	तहसील और लॉजिस्टि	र जिला पलवल, हरियाण क्स एंड मैरीटाइम सर्वि	॥ में स्थित, विव सिज प्राइवेट वि	ारण निम्नानुर ले मिटेड) के	सार है: डि ह स्वामित्व	स्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिव । में है।	स्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट	(i) बिक्री विलेख सं. 1 (ii) बिक्री विलेख सं. 1 (iii) बिक्री विलेख सं. 1	9322 दिनांक	13/03/12	(22-10) म स (7-14), 33//9/2(6-1: 13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24//4/2(5-11), 6/2(3-	में से 19((8-0)		(2-5)
(ए) पलवल (हरिय १४.7625 एकड़, गांव लिमिटेड (पूर्ववर्ती में बिक्री/विनिमय	ाणा) में स्थित इ फिरोजपुर,	तहसील औ लॉजिस्टिव ाप	र जिला पलवल, हरियाण	ग में स्थित, विव सिज प्राइवेट ि मैरीटाइम सर्विसेज	ारण निम्नानुर ले मिटेड) के प्राइवेट	सार है: डि ह स्वामित्व विक्रम ह	स्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिव । में है।	स्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट टाइम सर्विसेज प्राइवेट	(ii) बिक्री विलेख सं. 1 (iii) बिक्री विलेख सं. 1	9322 दिनांक 9323 दिनांक	13/03/12 13/03/12	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24//4/2(5-11), 6/2(3- तथा 8/1 (0-6)	में से 19(10), 7(7-	(8-0)	(42.2)	(2-5)
(ए) पलवल (हरिय १४.7625 एकड़, गांव लिमिटेड (पूर्ववर्ती में बिक्री/विनिमय	ाणा) में स्थित व फिरोजपुर, वेसर्स विक्रम भूमि म	तहसील औ लॉजिस्टिव ाप ा) (5	र जिला पलवल, हरियाण क्स एंड मैरीटाइम सर्वि विक्रम लॉजिस्टिक्स एंड लिमिटेड के पक्ष में 5-12) यानी 112/450 हिस्स	ाा में स्थित, विव सिज प्राइवेट र् मैरीटाइम सर्विसेज अविभाजित हिस्से सा, (22-10) में	रण निम्नानुर लिमिटेड) के प्राइवेट दारी से, 33/9/2	सार है: डि ह स्वामित्व विक्रम ह भूमि माप	स्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिव में है। लॉजिस्टिक्स एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में ((88-12) क) (8	स्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट टाइम सर्विसेज प्राइवेट विशेष भूमि 0-12), 32//25 (7-	(ii) बिक्री विलेख सं. 1	9322 दिनांक 9323 दिनांक 956 दिनांक	13/03/12 13/03/12 14/09/12	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24//4/2(5-11), 6/2(3-	में से 19(10), 7(7-	(8-0)	(12-2)	(2-5)
ए) पलवल (हरिय 24.7625 एकड़, गांव लेमिटेड (पूर्ववर्ती में बिक्री/विनिमय लेख सं. तथा तिथि विक्री विलेख सं. 8	ाणा) में स्थित व फिरोजपुर, वेसर्स विक्रम भूमि म (के-ए	तहसील औ लॉजिस्टिव ाप ा) (5	र जिला पलवल, हरियाण क्स एंड मैरीटाइम सर्वि विक्रम लॉजिस्टिक्स एंड लिमिटेड के पक्ष में	ाा में स्थित, विव सिज प्राइवेट र् मैरीटाइम सर्विसेज अविभाजित हिस्से सा, (22-10) में	रण निम्नानुर लिमिटेड) के प्राइवेट दारी से, 33/9/2	सार है: डि ह स्वामित्व विक्रम ह भूमि माप 11), 34	स्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिव में है नॉजिस्टिक्स एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (88-12) क) (8 (7/1(8-0), 9/1	स्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट टाइम सर्विसेज प्राइवेट f विशेष भूमि	(ii) बिक्री विलेख सं. 1 (iii) बिक्री विलेख सं. 1 (ii) बिक्री विलेख सं. 1	9322 दिनांक 9323 दिनांक 956 दिनांक 9322 दिनांक	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तवा (17-5) (2-5) यानी 24/4/2(5-11), 6/2(3- तवा 8/1 (0-6) (12-2) यानी 23//19/2 (4 20(8-0) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3/	में से 19(10), 7(7- -2)	(8-0)	(12-2)	(2-5)
ए) पलवल (हरिय 24.7625 एकड़, गांव लेमिटेड (पूर्ववर्ती में बिक्री/विनिमय लेख सं. तथा तिथि विक्री विलेख सं. 8	ाणा) में स्थित व फिरोजपुर, वेसर्स विक्रम भूमि म (के-ए	तहसील औ लॉजिस्टिव ाप ा) (5	ार जिला पलवल, हरियाण क्स एंड मैरीटाइम सर्वि विक्रम लॉजिस्टिक्स एंड लिमिटेड के पक्ष में 5-12) यानी 112/450 हिस्स 5/12/1 (7-8,13/1 (0-	ाा में स्थित, विव सिज प्राइवेट र् मैरीटाइम सर्विसेज अविभाजित हिस्से सा, (22-10) में	रण निम्नानुर लेमिटेड) के प्राइवेट वर्षी से, 33/9/2 0-2), 19	सार है: डि ह स्वामित्व विक्रम ह भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 (स्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिव । में हैं। नॉजिस्टिक्स एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में [(88-12) क) (8 ///1(8-0), 9/1 2-0). 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0),	स्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट टाइम सर्विसेज प्राइवेट र्विक्शेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0).), 20-2 (5-1), ह्वि 7/1 (5-13), 13/1	(ii) बिक्री विलेख सं. 1 (iii) बिक्री विलेख सं. 1 (i) बिक्री विलेख सं. 7 (ii) बिक्री विलेख सं. 7	9322 दिनांक 9323 दिनांक 956 दिनांक 9322 दिनांक) दिनांक 12/	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24//4/2(5-11), 6/2(3- तथा 8/1 (0-6) (12-2) यानी 23//19/2 (4 20(8-0)	華 龍 19(10), 7(7- -2) 1/712/3(5	(8-0) '-18) 5-7)	(12-2)	(2-5)
(ए) पलवल (हरिय 24.7625 एकड़, गांव लेमिटेड (पूर्ववर्ती में बिक्री/विनिमय लेख सं. तथा तिथि विक्री विलेख सं. 8	ाणा) में स्थित व फिरोजपुर, वेसर्स विक्रम भूमि म (के-ए	तहसील औ लॉजिस्टिव ाप ा) (5	ार जिला पलवल, हरियाण क्स एंड मैरीटाइम सर्वि विक्रम लॉजिस्टिक्स एंड लिमिटेड के पक्ष में 5-12) यानी 112/450 हिस्स 5/12/1 (7-8,13/1 (0-	ाा में स्थित, विव सिंज प्राइवेट र् मैरीटाइम सर्विसेज अविभाजित हिस्से सा, (22-10) में	रण निम्नानुर लेमिटेड) के ग्राइबेट विसे से, 33/9/2 0-2), 19	सार है: डि ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) and	स्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिव में है नॉजिस्टिक्स एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (88-12) क) (8 (7/1(8-0), 9/1 2-0). 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), . 14/1 (5-1), 14	स्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट टाइम सर्थिसेज प्राइवेट विशेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0).), 20-2 (5-1), छि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में शामिल	 (ii) बिक्री विलेख सं. 1 (iii) बिक्री विलेख सं. 1 (i) बिक्री विलेख सं. 7 (ii) बिक्री विलेख सं. 7 (iii) बिक्री विलेख सं. 1 विक्री विलेख सं. 66 	9322 दिनांक 9323 दिनांक 956 दिनांक 9322 दिनांक 0 दिनांक 12/	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यांनी 24/4/2(5-11), 6/2(3- तथा 8/1 (0-6) (12-2) यांनी 23//19/2 (4 20(8-0) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यांनी 3- तथा 13/1(3-12) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यांनी 3- 33-2) में से (3-15) यांनी 10//21/1(4-1	華 龍 19(10), 7(7- -2) 4/712/3(5 32//5(8-0 2), 11//1	(8-0) (-18) (5-7) (0) (17(7-14),	(12-2)	(2-5) (9-19)
(ए) पलवल (हरिय 24.7625 एकड़, गांव लेमिटेड (पूर्ववर्ती में बिक्री/विनिमय लेख सं. तथा तिथि विक्री विलेख सं. 8	ाणा) में स्थित व फिरोजपुर, वेसर्स विक्रम भूमि म (के-ए	लॉजिस्टिंग लॉजिस्टिंग प्र रा (8	र जिला पलवल, हरियाण क्स एंड मैरीटाइम सर्वि विक्रम लाजिरिटक्स एंड लिपिटेड के एंड में 5-12) वाती 112/450 हिस्स 5/12/1 (7-8,13/1 (0- 8-0) में शामिल	ा में स्थित, विव सिंज प्राइवेट र् मैरीटाइम सर्विसेज अविभाजित हिस्से सा, (22-10) में -8), 18/2/2 (रण निम्नानुर लेमिटेड) के ए प्राइवेट दारी से, 33/9/2 0-2), 19	सार है: डि ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) and	स्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिव में हैं नॉजिस्टिक्स एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (88-12) क) (8 ///(8-0), 9/1 2-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0),	स्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट टाइम सर्थिसेज प्राइवेट विशेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0).), 20-2 (5-1), छि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में शामिल	(ii) बिक्री विलेख सं. 1 (iii) बिक्री विलेख सं. 1 (i) बिक्री विलेख सं. 7 (ii) बिक्री विलेख सं. 7 (ii) बिक्री विलेख सं. 1 बिक्री विलेख सं. 66	9322 दिनांक 9323 दिनांक 956 दिनांक 9322 दिनांक) दिनांक 12/ । दिनांक 12/ 9 दिनांक 25.	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 (05/12 (13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24//4/2(5-11), 6/2(3-78) तथा 8/1 (0-6) (12-2) यानी 23//19/2 (4-20(8-0) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3-78 (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यानी	节	(8-0) (-18) (5-7) (0) (17(7-14), (5-8)	(12-2)	(2-5) (9-19)
ए) पलवल (हरिय १4,7625 एकड़, गांव लिमिटेड (पूर्ववर्ती हैं बिक्री/विनिम्य लेख सं तथा तिथि विक्री विलेख सं. 8 दिनांक 01/04/13 विक्री विलेख सं. 1711	ाणा) में स्थित व फिरोजपुर, नेसर्स विक्रम भूमि म (के-ए (944	लॉजिस्टिव लॉजिस्टिव गप ग) (5 (6 (8	र जिला पलवल, हरियाण क्क्स एंड मेरीटाइम सर्वि विक्रम नार्वितिद्यस एंड : लिमिटेड के पक्ष में 5-12) चानी 112/450 हिस्स 5-12/1 (7-8,13/1 (0- 8-0) में शामिल 22-18) चानी (68-14) में), 5(7-7), 6/2 (3-8), 1, 16/17 (0-10), 22//	ा में स्थित, विव सिंज प्राइवेट मैरीटाइम सर्विसेज अविभाजित हिस्से सा, (22-10) में -8), 18/2/2 (से 1/3 हिस्सा, 7/1 (0-15), 10/2 (6-5), 1	रण निम्नानुर लेमिटेड) के । प्राइवेट वित्ती से, 33/9/2 0-2), 19	सार है: डि ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) and	स्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिव में है नॉजिस्टिक्स एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (88-12) क) (8 (7/1(8-0), 9/1 2-0). 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), . 14/1 (5-1), 14	स्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट टाइम सर्थिसेज प्राइवेट विशेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0).), 20-2 (5-1), छि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में शामिल	(ii) विक्री विलेख सं. 1 (iii) विक्री विलेख सं. 1 (ii) विक्री विलेख सं. 7 (ii) विक्री विलेख सं. 7 विक्री विलेख सं. 66 विक्री विलेख सं. 66 विक्री विलेख सं. 271 विक्री विलेख सं. 271	9322 दिनांक 9323 दिनांक 956 दिनांक 9322 दिनांक 1) दिनांक 12/ 1) दिनांक 12/ 9) दिनांक 25. 6) दिनांक 17.	13/03/12 13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 05/12 ((07/12	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यांनी 24/4/2(5-11), 6/2(3- तथा 8/1 (0-6) (12-2) यांनी 23//19/2 (4- 20(8-0) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यांनी 3- तथा 13/1(3-13) तथा 13/1(3-13) 33-2) में से (3-15) यांनी 10//21/1(4-1) 24(8-0), 25/1(1-7), 25/(6-0), 2 (4-8) में ले (1-17 ½) यांनी 33//22/2 (1-1), 40//10/12(0-2	节 前 19(10), 7(7- -2) -2) -322/5(8-0 22), 11//1 (3-5), :	(8-0) (-18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2		(2-5) (9-19)
ए) पलवल (हरिय १4,7625 एकड़, गांव लिमिटेड (पूर्ववर्ती हैं बिक्री/विनिम्य लेख सं तथा तिथि विक्री विलेख सं. 8 दिनांक 01/04/13 विक्री विलेख सं. 1711	ाणा) में स्थित व फिरोजपुर, नेसर्स विक्रम भूमि म (के-ए (944	ाप लॉजिस्टिट पप ने) (5 (6 (8 8) (2 0) 8) 13 (4	र जिला पत्वल, हिरीयाण स्वस एंड मैरीटाइस सांवि विकास मार्गिस्टियम एंड लिमिटेड के पक्ष में 5-12) वामी 112/450 हिस्स /12/1 (7-8,13/1 (0- 8-0) में मार्गिस्त), (४/7-7), (४/2 (3-8),), (8/7-7), (४/2 (3-8),), (8/7-7), (2/2 (3-8),), (8/7-7), (8/2 (3-8),), (8/7-7), (8/7-	ा में स्थित, विव सिंज प्राइवेट मैरीटाइम सर्वियेज अविभाजित हिस्से सा, (22-10) में -8), 18/2/2 (से 1/3 हिस्सा, 7/1 (0-15), '7/2 (6-5), 1	रण निम्नानुर लेमिटेड) के । प्राइवेट दारी से, 33/9/2 0-2), 19 21//4 (8- 7/2/1 (2- 1/1/1 (4- 64//19/1	सार है: डि ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) and	स्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिव । में है। नॉजिस्टिक्स एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में [(88-12) क) (8 1//1(8-0), 9/1 2-0). 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), . 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14)	स्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट टाइम सर्थिसेज प्राइवेट विशेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0).), 20-2 (5-1), छि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में शामिल	(ii) विक्री विलेख सं. 1 (iii) विक्री विलेख सं. 1 (i) विक्री विलेख सं. 2 (ii) विक्री विलेख सं. 2 विक्री विलेख सं. 66 विक्री विलेख सं. 66 विक्री विलेख सं. 271 विक्री विलेख सं. 252 विक्री विलेख सं. 554	9322 दिनांक 9323 दिनांक 956 दिनांक 9322 दिनांक 9 दिनांक 10 दिनांक 12/ 9 दिनांक 14/ 9 दिनांक 14/ 14/ 9 दिनांक 14/ 9 दिनांक 14/ 14/ 14/ 14/ 14/ 14/ 14/ 14/ 14/ 14/	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 104/12 004/12 004/12 (007/12 (006/12 (13/(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यांनी 24/4/2(5-11), 6/2(3- तथा 8/1 (0-6) (12-2) यांनी 23//19/2 (4 20(8-0) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यांनी 3- तथा 13/(3-12) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यांनी 3- 33-2) में से (3-15) यांनी 10//21/(4-1 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-1) में ले (1-17), 40/10/12(0-2 (1-1), 40//10/12(0-2	華 報 19(10), 7(7- -2) 4/712/3(5 32//5(8-C 2), 11//1 (3-5), :)	(8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2	(14-0)	(2-5) (9-19)
ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड़, गाँ गेलिमेंड (पूर्वलिमेंड बिक्री/विनिमय लेख सं तथा तिथ विन्नी विलेख सं. 8 दिनोंक 01/04/13 बिक्री विलेख सं. 1711 देनांक 05/06//13	ाणा) में स्थित व फिरोजपुर, नेसर्स विक्रम भूमि म (के-ए (944	ाप लॉजिस्टिट पप ने) (5 (6 (8 8) (2 0) 8) 13 (4 4)	र जिला पलवल, हरियाण स्वस्य एंड मेरीटाइम सर्वि किस्त्रम सॉनिटस्स्य एंड लिमिटेड के एक्ष में 5-12) यानी 112/450 हिस्स 5/12/ (7-8.13/1 (0- 9-0) में शामिल 222-18) यानी (68-14) में), 8(7-7), 6/2 (3-9),), 16/1/1 (0-10), 2(4-5), 69), 18/1/1/2 (4-6), 69)	ा में स्थित, विव सिंज प्राइवेट मैरीटाइम सर्वियेज अविभाजित हिस्से सा, (22-10) में -8), 18/2/2 (से 1/3 हिस्सा, 7/1 (0-15), '7/2 (6-5), 1	रण निम्नानुर लेमिटेड) के । प्राइवेट दारी से, 33/9/2 0-2), 19 21//4 (8- 7/2/1 (2- 1/1/1 (4- 64//19/1	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विक्री विलेख सं. 1 (iii) विक्री विलेख सं. 1 (ii) विक्री विलेख सं. 7 (ii) विक्री विलेख सं. 7 विक्री विलेख सं. 66 विक्री विलेख सं. 66 विक्री विलेख सं. 271 विक्री विलेख सं. 271	9322 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9322 दिनांक 9322 दिनांक 12/ 1 दिनांक 12/ 9 दिनांक 25. 6 दिनांक 17. 2 दिनांक 11. 23 दिनांक 033 दिनांक 053 दिनांक 05	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 04/12 (005/12 ((06/12 ((005/12 (13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यांनी 24/4/2(5-11), 6/2(3- तथा 8/1 (0-6) (12-2) यांनी 23//19/2 (4- 20(8-0) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यांनी 3- तथा 13/1(3-13) तथा 13/1(3-13) 33-2) में से (3-15) यांनी 10//21/1(4-1) 24(8-0), 25/1(1-7), 25/(6-0), 2 (4-8) में ले (1-17 ½) यांनी 33//22/2 (1-1), 40//10/12(0-2	華 報 19(10), 7(7- -2) 4/712/3(5 32//5(8-C 2), 11//1 (3-5), :)	(8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2		(2-5) (9-19) (4-10) (4-0) (3-15) (1-17½) (4-15.33)
(ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड़, गाँ लिमेटेड (पूर्वकानेटेड (पूर्वकानेटेड (पूर्वकानेटेड) विक्री वित्तेष्य सं तथा तिथि विक्री विलेख सं तथा तिथि विक्री विलेख सं . 8 दिनांक 01/04/13 विक्री विलेख सं . 1711 देनांक 05/06//13	ाणा) में स्थित व फिरोजपुर, गंससं विक्रम भूमि म (के-ए (944	ाप लॉजिस्टिट पप ने) (5 (6 (8 8) (2 0) 8) 13 (4 4)	र जिला पत्वल, हिरीयाण स्वस एंड मैरीटाइस सांवि विकास मार्गिस्टियम एंड लिमिटेड के पक्ष में 5-12) वामी 112/450 हिस्स /12/1 (7-8,13/1 (0- 8-0) में मार्गिस्त), (४/7-7), (४/2 (3-8),), (8/7-7), (४/2 (3-8),), (8/7-7), (2/2 (3-8),), (8/7-7), (8/2 (3-8),), (8/7-7), (8/7-	ा में स्थित, विव सिंज प्राइवेट मैरीटाइम सर्वियेज अविभाजित हिस्से सा, (22-10) में -8), 18/2/2 (से 1/3 हिस्सा, 7/1 (0-15), '7/2 (6-5), 1	रण निम्नानुर लेमिटेड) के । प्राइवेट दारी से, 33/9/2 0-2), 19 21//4 (8- 7/2/1 (2- 1/1/1 (4- 64//19/1	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीव्यूयन लॉजिस्टिव में हैं। गीं हैं। (88-12) को (8 (7/1(8-0), 9/1 2-0), 1/13 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 (1 15/3 (1-14) रें (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 1 (i) विकां विलेख सं. 7 (ii) विकां विलेख सं. 7 (ii) विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 66 विकां विलेख सं. 66 विकां विलेख सं. 221 विकां विलेख सं. 325 विकां विलेख सं. 352 विकां विलेख सं. 359 कुळ मुं विकां विलेख सं. 359 कुळ मुं विकां विलेख सं. 359 विकां विलेख सं. 359 विकां विलेख सं. 359 कुळ मुं विकां विलेख सं. 359 कुळ मुं विकां विलेख सं. 359	9322 दिनांक 9323 दिनांक 9356 दिनांक 9356 दिनांक 9322 दिनांक 0 दिनांक 12/ 9 दिनांक 12/ 9 दिनांक 25/ 6 दिनांक 17/ 2 दिनांक 11/ 93 दिनांक 09/ (12.0906 मे माप	13/03/12 13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 004/12 (005/12 ((005/12 ((005/12)))))	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यांनी 24/4/4/2(5-11), 6/2(3- तथा 8/1 (0-6) (12-2) यांनी 23//19/2 (4 20(8-0) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यांनी 3- तथा 13/1(3-13) 33-2) में से (3-15) यांनी 10//21/1(4-1 24(8-0), 25/7(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में ले (1-17 ½) यांनी 33//22/2 (1-1), 40//10/12(0-2 14-6) में में (4-1533) यांनी 21/6/3-8, 22//80/2 14-0) यांनी 24//4/2 (2-13), 15/3(3-17), 17/1 (1-1)	華 報 19(10), 7(7- -2) 4/712/3(5 32//5(8-C 2), 11//1 (3-5), :)	(8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2	(14-0)	(2-5) (9-19) (4-10) (4-10) (3-15) (4-15.33) (4-15.33)
(ए) पलवल (हरिय १४.7625 एकड, ग्रिस्ट लिम्टिड (पूर्वार्ती में बिक्री/विनिमय लेख सं. तबा तिथि विलेख सं. 8 दिनांक 01/04/13 विक्री विलेख सं. 1711 देतांक 05/06/13 विक्री विलेख सं. 1771 देतांक 1776 दिनांक 07/06/13	णा) में स्थित व फिरोजपुर, रं संसर्स विक्रम भूमि म (के-ए (944	तहसील औं लॉजिस्टर पप र) (5) (6 (8 (8 (8 (8 (8 (12)) (0	र जिला पलवल, हरियाण स्वस एंड मैरीटड्ड साढि विक्रम सार्वित्रक्त सार्वित्रक्त एंड लिमिटेड के पक्ष में 5-12) यानी 112/450 हिस् 5/12/1 (7-5,13/1 (0- 5-0) में सामिल 5/13/1 (0-1), 6/2 (3-8), 1, 8/7-7), 6/2 (3-8), 1, 25/(3-2), 1,	ाा में स्थित, विव स्तिज प्राइवेट र्डिंग अविधाइम सर्वित्तेज आविधाइम सर्वित्तेज स्ता (22-10) में -8), 18/2/2 (में 1/3 हिस्सा, 7/1 (0-15), 10/2 (6-5), 1 15 (8-0),	रण निम्नानुर लिमिटेड) के प्रमादयेट (वारी से, 33/9/2 0-2), 19 21//4 (8- 7/2/1 (2- 1/1/1 (4- 64//19/1 24/2 (3-	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विश्वी विलेख सं. 1 (iii) विश्वी विलेख सं. 7 (i) विश्वी विलेख सं. 7 (ii) विश्वी विलेख सं. 1 विश्वी विलेख सं. 6 विश्वी विलेख सं. 6 विश्वी विलेख सं. 27 विश्वी विलेख सं. 252 विश्वी विलेख सं. 524 विश्वी विलेख सं. 524 विश्वी विलेख सं. 525 विश्वी विलेख सं. 525 विश्वी विलेख सं. 535 विश्वी विलेख सं. 535 विलेख सं. 535 विश्वी विलेख सं. 535 विश्वी विलेख सं. 535 विलेख सं. 535 विश्वी विलेख सं. 535 विलेख सं. 535 व	9322 दिनांक 9323 दिनांक 9356 दिनांक 9356 दिनांक 9322 दिनांक 0 दिनांक 12/ 9 दिनांक 12/ 9 दिनांक 25. 6 दिनांक 17. 2 दिनांक 11. 93 दिनांक 09 (12.0906 मे माप	13/03/12 13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 005/12 ((005/12	13/(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यांनी 24/4/2(5-11), 6/2(3- तथा 8/1 (0-6) (12-2) यांनी 23//19/2 (4 20(8-0) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यांनी 3- तथा 13/(3-12) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यांनी 3- 33-2) में से (3-15) यांनी 10//21/(4-1 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-1) में ले (1-17), 40/10/12(0-2 (1-1), 40//10/12(0-2	華	(8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) 1/1/2 (5-7)	(14-0) (55-6) (6.9125 咬吞雾)	(2-5) (9-19)
(ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड़, प्रकड़, वार्ति लिमेटेड (पूर्ववर्ती के विक्री/विनिमय लिख सं. तथा तिथि विक्री विलेख सं. 8 दिनांक 01/04/13 विक्री विलेख सं. 1711 देनांक 05/06//13 विक्री विलेख सं. 1776 दिनांक 07/06/13	(8-0 (10-1) भूमि म	लॉजिस्टिंग लॉजिस्टिंग प्र र) (5 (6 (8 8) (2 (8 8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	र जिला पलावल, हरियाण प्रस्त पुंड मेरिटाइस सांदि विकास सांतिपिटाइस पुंड निर्मिटेड के पक्ष में 5-12) यानी 112/450 हिस्स 5/12/1 (7-8,15/1 (0- -0-) में सांतिस 5/12/1 (7-8,15/1 (0- -0-) के (7-7), 6/2 (3-8), 5/12/1 (7-8,15/1 (0- -0-), 15/13/2 (4-8), 6 -0, 15/16/2 (4-3) 5/15/16/2 (5-3) 5/15/16/2 (5-3) 5/15/16/16/2 (5-3) 5/15/16/2 (5-3)	ाा में स्थित, विव स्तिज प्राइवेट र्रिसेज प्राइवेट र्रि मेरीटाइम सर्विराइम स्त्रीत्याद्य सर्विराइम सा. (22-10) में -8), 18/2/2 (से 1/3 हिस्सा, 7/1 (0-15), 15 (8-0), 15 (8-0), 5/37 हिस्सा, 18, 5/37 हिस्सा, 18, 5/37 हिस्सा, 18, 5/37 हिस्सा, 18, 5/37 हिस्सा, 18, 5/37 हिस्सा, 18, 5/37 हिस्सा, 18,	राण निम्नानुर लिमिटेड) के ग्राववेट तत्त्वी से, 33/9/2 0-2), 19 21//4 (8- 7/2/1 (2- 1/1/1 (4- 64//19/1 24/2 (3-	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विका विलेख सं. 1 (iii) विका विलेख सं. 1 (i) विका विलेख सं. 1 विका विलेख सं. 1 विका विलेख सं. 2 विका विलेख सं. 66 विका विलेख सं. 52 विका विलेख सं. 52	9322 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9322 दिनांक 19322 दिनांक 19322 दिनांक 10 दिनांक 12/1 दिनांक 12/1 दिनांक 12/1 दिनांक 15/1	13/03/12 13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 04/12 (707/12 (707/12 (706/	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यांनी 24//4/2(5-11), 6/2(3- तथा 8/1 (0-6) (12-2) यांनी 23//19/2 (4 20(8-0) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यांनी 3- तथा 13/1(3-13) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यांनी 3- 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में ले (1-17 ½) यांनी 33//22/2 (1-1), 40//10/12(0-2) (4-6) में से (4-1535) यांची 21//6/23-9), 22//10/2 (14-0) यांची 24//14/2 (2-13), 15/(2-17), 17/1 (4-0) यांची 24//14/2 (2-13), 15/(2-17), 15/(2-17), 17/1 (4-0) यांची 24//14/2 (2-13), 15/(2-17), 17/(2-17)	में से 19(10), 7(7- -2) 4/712/3(5 4/712/3(5 8- 22), 11//1 (2//1/1 (ई (3-5), 1)) 15), 2/3, 23//	(8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2	(14-0) (55-6) (6.9125 咬吞雾)	(4-15.33 (4-18.50) (5.1781) \overline{Quarter}
(ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड़, प्रकड़, वार्ति लिमेटेड (पूर्ववर्ती के विक्री/विनिमय लिख सं. तथा तिथि विक्री विलेख सं. 8 दिनांक 01/04/13 विक्री विलेख सं. 1711 देनांक 05/06//13 विक्री विलेख सं. 1776 दिनांक 07/06/13	णा) में स्थित व फिरोजपुर, रं संसर्स विक्रम भूमि म (के-ए (944	तहसील औं लॉजिस्टिट प्प र) (5 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8	र जिला पलावन, हरियाण स्वस एंड मेरिग्रहम सार्थि हिस्स सिंग्रहम सार्थि हिस्स सिंग्रहम सार्थि हिस्स सिंग्रहम सार्थि हिस्स सिंग्रहम सार्थ हिस्स है-12) याची (12-45) हिस्स है-12) याची (12-45) हिस्स है-12) र (7-8,137) (0-0-1) ये जाविल (0-0) ये जाविल (1-17) या १९ (10-15) याची (15-17) या १९ (10-15) या १९ (10-15) याची (15-17) या १९ (15-17) या	॥ में स्थित, विव सिंग हिस्सा, विव सिंग होता है है से सिंग होता है है से सिंग होता है है है से सिंग होता है सिंग है सि	राण निम्नानुर लेमिटेड) के र प्राइवेट दावरी से, 33/9/2 0-2), 19 21//4 (8- 7/2/1 (2- 1/4/1/14) 4- 4/19/1 24/2 (3- 4/2/2 (1- (25- 04) 10/2 (4- fdf 51/516	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 1 (i) विकां विलेख सं. 1 (ii) विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 66 विकां विलेख सं. 66 विकां विलेख सं. 221 विकां विलेख सं. 524 विकां विलेख सं. 525 विकां विलेख सं. 525 विकां विलेख सं. 526 विकां विलेख सं. 527 विकां विलेख सं. 526 विकां विलेख सं. 526 विलंख स	9322 दिनांक 9323 दिनांक 956 दिनांक 956 दिनांक 9322 दिनांक 10 दिनांक 12/ 9 दिनांक 12/ 9 दिनांक 17/ 2 दिनांक 11/ 33 दिनांक 05 ((12.0906 मे माप्ट जिस्टिक्स ख सं. तथा सं. 11925 (/12/12	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 04/12 (/05/1	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यांनी 24/4/2(5-11), 6/2(3-6) तथा 8/1 (0-6) (12-2) यांनी 23//19/2 (4 20(8-0) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यांनी 3-7 (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यांनी 3-7 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में ले (3-15) यांनी 10//21/1(4-1 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में ले (1-17) ¼ यांनी 33//21/2 (4-0) को 24//4/2 (2-13), 15/3(3-17), 17/1 (4-10) यांनी 24//4/2 (4-10	में से 19(10), 7(7- -2) 4/712/3(5 322//5(8-6 22), 11//1 (3-5), : (6-5), 11/ (2-3), 23//	(8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) 1/1/2 (5-7)	(14-0) (55-6) (6.9125 收存募) (奋-एम) *	(4-15.33 (4-18.30 (5-17.10) (1-17.4) (4-18.33 (5-17.11 更新 (7-19)
(ए) पलवल (हरिय (4.7625 एकड़, गर्वा लिएटेड (पूर्वविन्य बिक्री/विनिमय लेख सं. तथा तिथि विक्री विलेख सं. 8 दिनांक 01/04/13 बिक्री विलेख सं. 1711 देनांक 05/06/13 बिक्री विलेख सं. 1771 देनांक 05/06/13 विक्री विलेख सं. 1776 दिनांक 07/06/13	णणा) में स्थित व फिरोजपुर, ; संसर्स विक्रम- भूमि म (केए (944 (22-1: (8-0 (10-1: भूमि म (15-07)	हिसील औं लॉजिस्टिट प्य 1)) (5 (6 (8 8)) (4 12))	र जिला पलवल, हिरेबाण स्वस एंड मेरीटाइस सहि विक्रम नार्वितिस्त्रम एंड स्विन्देड के पक्ष में 5-12) वानी 112/450 हिस्स 5-12) वानी 112/450 हिस्स 5-12) वानी 112/450 हिस्स 5-13) कार्ट (3-5), 1, 6/17/ (3-1), 6/2 (3-5), 1, 6/17/ (3-1), 6/2 (3-5), 1, 6/17/ (3-1), 1, 6/17/ (3-1), 1, 6/17/ (3-1), 1, 6/17/ (3-1), 1, 1/17/ (3-1), 1/17/ (3-	ा में रिश्वत, विव सैपीट्राइस विविध स अविध्याज्ञ सर्विध स सा, (22-10) में सो, (22-10) में स्वीत्य से 1/3 हिस्सा, 7/1 (0-15), 10/2/2 (-5), 10/2/2 (1-7),), 15 (8-0), 5/37 हिस्सा, 18, 5/37 हिस्सा, 18, 5/37 हिस्सा, 19, 10/2/2 (-11) में ज्ञासिल,	राण निम्नानुर लिमिटेड) के ग्रावंट ग न ग्रावंट ग्रावंट ग्रावंट ग्रावंट ग्रावंट ग्रावंट ग्रावंट ग्रावं	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विका विलेख सं. 1 (iii) विका विलेख सं. 1 (ii) विका विलेख सं. 1 विका विलेख सं. 1 विका विलेख सं. 6 विका विलेख सं. 66 विका विलेख सं. 524 विका विलेख सं. 524 विका विलेख सं. 525 विका विलेख सं. 527 विका विलेख सं. 527 विलेख सं.	9322 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9322 दिनांक 9322 दिनांक 12/9 दिनांक 12/9 दिनांक 12/9 दिनांक 12/9 दिनांक 25. 4 दिनांक 17. 4 दिनांक 17. 5 दिनांक 1	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 04/12 (05/12 (07/12 (06/12 (एकड़) हेतु एफड़ इंफ्रास्ट्रट तिथि कुल 24//	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यांनी 24//4/2(5-11), 6/2(3- तथा 8/1 (0-6) (12-2) यांनी 23//19/2 (4-6) (12-2) यांनी 23//19/2 (4-6) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यांनी 3- तथा 13/(3-12) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यांनी 3- 33-2) में से (3-15) यांनी 10//21//(4-1- 24(8-0), 25//(1-7-), 25/2(6-0), 2- (4-8) में ले (1-17-), 25/2(6-0), 2- (4-8) में ले (1-17-), 25/2(6-0), 2- (4-8) में ले (1-15-3) यांनी 33/22/2 (4-8) में ले (4-1533) यांनी 21//6/2(3-8), 22//9/2 (4-0) यांगे 24//4/2 (2-13), 15/(3-17), 17/1 (4-0) प्राहचेट लिमिटेड के स्वामित्व में भूमि माप (के-एम) (20-10) में से (7-19) यांनी 11//26(5-13), 17/2(5-17) तथा 18/1(3	前 前 19(10), 7(7- 2) 2) 2) 332//5(8-c- 22), 11//11 ((3-5), ((8-0) (-18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1//// (4-13) 7/11/2 (5-7)	(14-0) (55-6) (6.9125 收存家) (奋-एम) 8	(4-15) (4-10) (4-10) (4-15) (4-1533 (41-8.50 (5.1781 攻称 (7-19)
ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड़, गाँट विमिन्टेड (पूर्ववर्ती में बिक्री/विनिमय लेख से तथा तिथि विक्री विलेख से. 8 देनांक 01/04/13 विक्री विलेख सं. 1711 देनांक 05/06//13 विक्री विलेख सं. 1776 देनांक 07/06/13 विक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13	णण) में स्थित व फिरोजपुर, ; संसर्ग विक्रम भूमि म (के-ए (944 (22-1: (8-0 (10-1: भूमि म (15-07)	तहसील औ लॉजिस्टिट प प) (६ (६ (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8	र जिला पलवल, हिरीयाण स्वस्त एंड मैरीटाइम सहि क्रिक्रम नॉगिटाइम सहि हिगीटाइम सहि हिगीटाइम एंड हिगीटाइम हिगिटा हिगीटाइम हिगि	ा में स्थित, विव स्तिज प्राइवेट र्म सेविद्यम सर्विवेड औद्यापायित हिस्से ता, (22-10) में 11/3 हिस्सा, 18, 18/2/2 (10/2/46-5), 15/2/1/(1-7), 15/2/1/(1-7), 15/37 हिस्सा, 18, 504 में शामिल, 2/1 (5-12), 0-0) (2-11) खंश (7-19), 10/ 0) में शामिल, 5/2/(7/1(6-3), 5/2/(7/1(6-3),	राण निम्नानुर लिमिटेड) के ग्राप्त्रकेट सर्वे 33/9/2 0-2), 19 21//4 (8- 7/2/1 (2- 1/1/1) (4- 64//19/1 24/2 (3- 10/2/2 (1- (25- 04)) 10/2 (4- ली 51/516 1 (3-17), 26//1(8- //5/8-0), //4/1 (14/1 (5-	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विका विलेख सं. 1 (iii) विका विलेख सं. 1 (i) विका विलेख सं. 1 (ii) विका विलेख सं. 1 विका विलेख सं. 1 विका विलेख सं. 2 विका विलेख सं. 22 विका विलेख सं. 325 विका विलेख सं. 325 विका विलेख सं. 325 विका विलेख सं. 325 विका विलेख सं. 321 विलेख सं. 321 विका विलेख सं. 321 विलेख सं	9322 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9322 दिनांक 9322 दिनांक 9322 दिनांक 12/ 1 दिनांक 12/ 9 दिनांक 17/ 9 दिनां	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 004/12 (05/12 (07/12 (06/12 (ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্ত্	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यांनी 24//4/2(5-11), 6/2(3-24) (12-2) यांनी 23//19/2 (4-26) (12-2) यांनी 23//19/2 (4-26) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यांनी 3-78 (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यांनी 3-22) में से (3-15) यांनी 10/2/11(4-1-24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में ले (1-17) ¼) यांनी 33/2/2/1(4-1-1), 40//10/12(0-2-14-6) में से (4-5) को 21/6/2(3-8), 22/70/2 (14-0) यांनी 24//14/2 (2-13), 15/2(3-17), 17/1 (14-0) यांनी 24//14/2 (2-13), 15/2(3-17), 17/1 (14-0) यांनी 24//14/2 (2-17), 71/1 (14-0) यांनी 11//26(5-16/3(5-13), 17/2(5-17) तथा 11/26(5-16/3(5-13), 17/2(5-17) तथा 11/27(1/27) (14-16/2(2-0), 25/1(3-17) (12-14), 23//21(8-0), 21//22/1 (4-16/3(5-13), 17/2(5-17) तथा 11/27(1/27)	著 着 19(100), 7(7- -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2	(8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) /11/2 (5-7) Ez स्वामित्व भूमि (21-04) (2:652)	(14-0) (55-6) (6.9125 哎奇等) (ेके-एम) ³)	(2-5) (9-19) (4-10) (4-10) (4-15.33 (41-8.50 (5.1781
ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड, गाँट लिमिन्ड (पूर्वावर्ती में बिक्री/विनिमय लेख से तथा तिथि विक्री विलेख से. 8 देनांक 01/04/13 विक्री विलेख सं. 1711 देनांक 05/06//13 विक्री विलेख सं. 1776 देनांक 07/06/13 विक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13	णा) में स्थित व फिरोजपुर, ने संसर्स विक्रम- भूमि म (क-ए (944 (22-1: (8-0 (10-1: भूमि म (15-07)	तहसील औ लॉजिन्टिट पर पर) (6 (8 8 8 9) (2 9) 9) 9) 13 (4 12 12 12 13 13 13 (4 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	र जिला पलवल, हरियाण स्वस एंड मैरीटाइस सहि विकास मार्गिस्टिक्स एंड लिमिटेड के पक्ष में 5-12) यानी 112/450 हिस्स 222-18) यानी (68-14) में), (3/57), 6/2 (3-8),), (3/57), (3/57), (3/57),), (3/5	ा में स्थित, विव स्तिज प्राइवेट र्म सेविद्यम सर्विवेड औद्यापायित हिस्से ता, (22-10) में 11/3 हिस्सा, 18, 18/2/2 (10/2/46-5), 15/2/1/(1-7), 15/2/1/(1-7), 15/37 हिस्सा, 18, 504 में शामिल, 2/1 (5-12), 0-0) (2-11) खंश (7-19), 10/ 0) में शामिल, 5/2/(7/1(6-3), 5/2/(7/1(6-3),	राण निम्नानुर लिमिटेड) के ग्राप्त्रकेट सर्वे 33/9/2 0-2), 19 21//4 (8- 7/2/1 (2- 1/1/1) (4- 64//19/1 24/2 (3- 10/2/2 (1- (25- 04)) 10/2 (4- ली 51/516 1 (3-17), 26//1(8- //5/8-0), //4/1 (14/1 (5-	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विका विलेख सं. 1 (iii) विका विलेख सं. 1 (ii) विका विलेख सं. 1 (ii) विका विलेख सं. 1 विका विलेख सं. 1 विका विलेख सं. 2 विका विलेख सं. 22 विका विलेख सं. 221 विका विलेख सं. 251 विका विलेख सं. 252 विका विलेख सं. 252 विका विलेख सं. 353 विका विलेख विलेख विका विलेख विका विलेख विका विलेख (विलेख (29 - 03) एक 5) वे पुष्ठ (भाग ए-3) गिरधी (भाग ए-3) गिरधी	3322 दिनांक 3323 दिनांक 3523 दिनांक 1055 दिनांक 12/105 दिनांक 13/105 दि	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 04/12 (05/12 ((एकड़) हेतु एएकड़) हेतु एएकड़) हेतु 24// 437	13/(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24/4/2(5-11), 6/2(3-74) (12-2) यानी 23//19/2 (4-12-12) (12-2) यानी 23//19/2 (4-12) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3-74 (3-15) यानी 10//21/(4-12-12) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यानी 3-33-2) में से (3-15) यानी 10//21/(4-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	著 着 19(100), 7(7- -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2	(8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) /11/2 (5-7) Ez स्वामित्व भूमि (21-04) (2:652)	(14-0) (55-6) (6.9125 哎奇等) (ेके-एम) ³)	(2-5) (9-19) (4-10) (4-10) (4-15.33 (41-8.50 (5.1781
ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड़, गाँ- लिमिन्डें (पूर्वार्वी में बिक्री/विनिमय लेख से तथा तिथि विक्री विक्री विलेख सं. 1711 देनांक 05/06//13 विक्री विलेख सं. 1711 देनांक 13/06//13 विक्री विलेख सं. 2015 देवांक 13/06/13	णण) में स्थित व फिरोजपुर, ; संसर्ग विक्रम भूमि म (के-ए (944 (22-1: (8-0 (10-1: भूमि म (15-07)	तहसील औ लॉजिनिटर प्राप्त प्राप्त) (६ (६ (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8	त जिला पलवल, हिरीयाण स्वस्त एंड मेरीटाइस सार्थि हिता सार्थितहम एंड मेरीटाइस सार्थि हिता सार्थितहम एंड मेरीटाइस सार्थि हिता सार्थितहम एंड मेरीटाइस हो मेरीटाइस	ा में स्थित, विव स्तिन प्राइयेट कि स्तिन प्राइयेट कि स्तिन प्राइयेट कि स्तिन (22-10) में स्ति (22-10) में स्ति (22-10) में स्ति (22-10) में स्ति (23-10) में स्ति (1-15), 10/22/14 (1-7),), 15 (8-0), 5/37 हिस्सा, 18, 5/37 हिससा, 18,	रण दिमानुव- रणमिटक) के आपनेट मा प्रावेद दे के स्वतंत्र के स्वतंत्	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विका विलेख सं. 1 (iii) विका विलेख सं. 1 (i) विका विलेख सं. 1 (ii) विका विलेख सं. 1 विका विलेख सं. 1 विका विलेख सं. 2 विका विलेख सं. 22 विका विलेख सं. 325 विका विलेख सं. 325 विका विलेख सं. 325 विका विलेख सं. 325 विका विलेख सं. 321 विलेख सं. 321 विका विलेख सं. 321 विलेख सं	9322 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9322 दिनांक 12/2 दिनांक 12/2 दिनांक 12/2 दिनांक 12/2 दिनांक 12/2 दिनांक 12/2 दिनांक 13/2	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 04/12 (05/12 ((एकड़) हेतु एएकड़) हेतु एएकड़) हेतु 24// 437	13/(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24//4/2(5-11), 6/2(3-74) (12-2) यानी 23//19/2 (4-12) यानी 23//19/2 (4-12) (8-0) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3-74(3-13) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यानी 3-32-2) में से (3-15) यानी 10/21/(4-12) 4(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में ले (1-17 ½) यानी 33//22/2 (4-8) में ले (1-17 ¼) यानी 33//22/2 (4-6) में ले (4-153) खेंची 10/2(0-2) 14-6) में ले (4-153) खेंची 10/2(0-2) 14-6) में से (4-153) खेंची 10/2(0-2) 14-6) में से (4-153) खेंची 10/2(3-8), 22//10/2 (1-0) में से (7-19) यानी 11//26(5-16/3(5-13), 17/2(5-17) तथा 18/1(3-0-4) यानी 24//16/2(2-0), 25/1(3-1-0-4) यानी 24//16/2(2-0), 25/1(3-1-0-4) यानी 24//16/2(2-0), 25/1(3-1-1(2-14), 23//21(8-0), 21//22/1 (4-11-14), 23//21(8-0), 21//	में से 19(10), 7(7-2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2)	(8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) /11/2 (5-7) Ez स्वामित्व भूमि (21-04) (2:652)	(14-0) (55-6) (6.9125 咬布穿) (क-एम) 8) ; एक穿) ((2-5) (9-19) (4-10) (4-10) (4-15.33 (5.1781 एवं (7-19) (0.9937 ए तंत्रीचपुर, तहसील व
(ए) पलवल (हरिय (4.7625 एकड, गाँट लिमिटेड (पूर्ववर्ती में बिक्री/विनिमय लेख से तबा तिथि विक्री विक्री विलेख सं. 1711 देनांक 05/06//13 विक्री विलेख सं. 1771 देनांक 05/06//13 विक्री विलेख सं. 2015 दिनांक 13/06/13	णण) में स्थित व फिरोजपुर, ; संसर्ग विक्रम भूमि म (के-ए (944 (22-1: (8-0 (10-1: भूमि म (15-07) (0-10: कुल भूमि (7-12)	हहसील औ लॉगिनिस्टर (8) (5) (5) (5) (6 (8) (6 (8) (7) (8) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	स जिल्ला पलावल, हरियाण स्वस्त एंड मेरिटाइस सहित स्वस्त एंड मेरिटाइस सहित स्वस्त एंड मेरिटाइस सहित स्वस्त एंड मेरिटाइस सहित स्वा है -12) याची (48-14) में), (6-2) में शाहित के एक में 222-18) याची (48-14) में), (6-2) में शाहित (48-14) में), (6-2) मेरिटा (48-14) मेरिटा (6-2) मेरिटा (48-14) मेरिटा (6-2) मेरिट	ा में स्थित, विवर्ध सिंप्या होवर में सिंप्या होवर में सिंप्या होवर में सिंप्या होवर में सिंप्या होवर हो सिंप्य होवर हो होते हैं है। 1/2 दिस्सा, (22-10) में 8), 18/2/2 (से 1/2 दिस्सा, (12-10) में 8), 18/2/2 (6-5), 10/2/2 (6-5), 10/2/2 (6-5), 10/2/2 (6-5), 10/2/2 (6-5), 10/2/2 (6-6), 27 (7-10), 10/2/2 (6-6), 27 (7-10), 10/2/2 (6-6), 27 (7-10), 10/2/2 (1-5) and (7-5), (15-15) suffice ii) (हें हिस्सा, 14/2/2 (5-14), 10/2/2 (16-15), 10/2/2 (16-	रण निमानुर (लिम्डिट) अध्येत (स्वान्त स्वान्त	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विका विलेख सं. 1 (iii) विका विलेख सं. 1 (ii) विका विलेख सं. 1 (ii) विका विलेख सं. 1 विका विलेख सं. 1 विका विलेख सं. 221 विका विलेख सं. 252 विका विलेख विका विका विलेख विका विका विलेख विलेख विका विलेख विलेख विका विलेख विलेख विका विलेख विलेख विका विलेख विका विलेख विका विलेख विका विलेख विलेख विका विलेख विल	9322 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9322 दिनांक 9322 दिनांक 10 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 13 दिनांक 1	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 04/12 04/12 (707/12 (707/12 (707/12 (707/12) (707/12	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यांनी 24//4/2(5-11), 6/2(3-78) वांनी 21//4/2(5-11), 6/2(3-78) वांनी 21//4/2(5-11), 6/2(3-78) वांनी 22//19/2 (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यांनी 3-78) में से (3-15) यांनी 10//21/1(4-12) में से (3-15) यांनी 10//21/1(4-12) में से (1-17 ½) यांनी 33//22/2 (1-1), 40//10/12(0-2) (1-1), 40//10//21(0-2) वांनी 24//4/2 (2-13), 15/(3-17), 17/1 (4-12) यांनी 11//26(5-13), 17/2(5-17) यांनी 11//26(5-13), 17/2(5-13), 17/2(5-13), 17/2(5-13), 17/2(5-13), 17/2(5-13), 17/2(5-13), 17/2(5-13), 17/2(5-13), 17/2	में से 19(10), 7(7-2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2)	(8-0) -18) 5-7) 0) 177(7-14), 5-8) 23/1/2 ///// (4-13) ///// (5-7) Examina with (21-04) (2682	(14-0) (55-6) (6.9125 咬布穿) (क-एम) 8) ; एक穿) ((2-5) (9-19) (9-19) (4-10) (4-10) (4-10) (4-10) (4-15.33 (5.1781 现在 项 (7-19) (0.9937 现 元 (7-19) (0.9937 双 元
(ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड़, गाँव लिएटेड (पूर्वकारी वे लिएटेड (पूर्वकारी वे बिक्री/विनिमय लिख सं. वत्रा तिथि विक्री विलेख सं. 8 दिनांक 01/04/13 विक्री विलेख सं. 1711 देवांक 05/06/13 विक्री विलेख सं. 1776 देवांक 05/06/13 विक्री विलेख सं. 2015 दिनांक 13/06/13	णण) में स्थित व फिरोजपुर, ; संसर्ग विक्रम भूमि म (के-ए (944 (22-1: (8-0 (10-1: भूमि म (15-07) (0-10: कुल भूमि (7-12)	तहसील औ लागिनिटर ११) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s	र जिला पलवल, हिरीयाण स्वस एंड मैरीटाइम सहि खक्रम नॉर्डिस्ट्र महि हैं किमटेड के पक्ष में 5-12) वामी 112/450 हिस्स 5-12) वामी 112/450 हिस्स 5-13) वामी 112/450 हिस्स 5-13) वामी (68-14) में 5-13) वामी (68-14) में 5-13) वामी (68-14) में 5-13) वामी (68-14) में 5-13) (68-14) में 5-14) (68-14) में 5-15) वामी (1-17) खा 5 5-16) (16-15) वामी (1-17) 5-16) वामी (1-17) खा 5 5-16) 15/1 (6-5), 11 5-16) 15/1 (6-5), 11 5-16) 15/1 (6-5), 11 5-16) 15/1 (6-5), 11 6-13) वामी (7-15), 15/2 16-13 वाम (7-15), 16/5 16-13 वाम (7-15), 16/5	ा में स्थित, विव स्रिज प्राइवेट किं सीचाइम सर्विचेड अविभाजित हस्से सा, (22-10) में *8, 18/2/2 (10/2(4-5), 10/2(4-6), 10	रण निमानुर (लिप्टिड) के लिप्ट के किया है। स्वाप्त के स्वर्थ कर किया है। स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्व	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 7 (ii) विकां विलेख सं. 7 (ii) विकां विलेख सं. 7 (iii) विकां विलेख सं. 7 (iii) विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 6 विकां विलेख सं. 6 विकां विलेख सं. 52 विकां विलेख सं. 52 विकां विलेख सं. 52 विकां विलेख सं. 55 विकां विलेख सं. 59 विकां विलेख सं. 191 वंधक (७६-14.50) यार्व वंधकां (७६-14.50) यार्व	9322 दिनांक 9323 दिनांक 10 दिनांक 12 12 दिनांक 11 13 दिनांक 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 04/12 00/12 00/12 (06/12 ((एकड़) हेतु पूर्व इंफ्रास्ट्रव तिथि कुल 24// (2 24/ 437	13/(0-8), 8/2/2/(0-2) तथा (17-5) (2-5) यांनी 24//4/2/(5-11), 6/2(3-7) (2-5) यांनी 24//4/2/(5-11), 6/2(3-7) (12-2) यांनी 23//19/2 (4-20) (12-2) यांनी 23//19/2 (4-20) (9-0) का ½ हिस्सा यांनी 3-70 (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यांनी 33-2) में सें (3-15) यांनी 10/2/1/(4-1-24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में लें (1-17 ¼) यांनी 33//22/2 (1-1), 40//10/123) यांची 23//42/2(2-13), 15/2(3-17), 17/1 (1-0) यांची 34//42 (2-13), 15/2(3-17), 17/1 (1-0) यांची 11//26(5-13), 17/2(5-17) यांची 11//26(5-13), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-17), 17/2(5-	में से 19(10), 7(7-2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2)	(8-0) -18) 5-7) 0) 177(7-14), 5-8) 23/1/2 ///// (4-13) ///// (5-7) Examina with (21-04) (2682	(14-0) (55-6) (6.9125 咬布穿) (क-एम) 8) ; एक穿) ((2-5) (9-19) (4-10) (4-10) (4-15.33 (5.1781 एवं (7-19) (0.9937 ए तंत्रीचपुर, तहसील व
(ए) पलवल (हरिय (4.7625 एकड, गाँट लिमिटेड (पूर्ववर्ती में बिक्री/विनिमय लेख से तबा तिथि विक्री विक्री विलेख सं. 1711 देनांक 05/06//13 विक्री विलेख सं. 1711 देनांक 05/06//13 विक्री विलेख सं. 2015 दिनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2015 दिनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2015 दिनांक 13/06/13	णण) में स्थित व फिरोजपुर, ; संसर्स विक्रम भूमि म (के-ए (944 (22-1: (8-0 (10-1: भूमि म (15-07) (0-10: कुल भूमि (7-12)	हहसील औ लॉगिनिटट (8)))) (6 (8))))) (8))) (8))))) (8))))	र जिला पलवल, हरियाण स्वस एंड मैरीटाइस सहि विकास मार्गिटाइस सहि किसिटेड के पक्ष में 5-12) यानी 112/450 हिस्स 5-12) यानी 112/450 हिस्स 5-12/1 (7-5,137) (0- 5-0) में मार्गिल 6-0) में मार्गिल 6-0) में मार्गिल 6-0) में मार्गिल 6-0) 10/1/3/2 (4-6), 69 6-10), 70/16/2 (5), 25/13/2 (4-6), 69 6-10), 70/16/2 (5), 25/13/2 (4-6), 69 6-10), 70/16/2 (5), 12/13/2 (4-6), 69 6-10), 70/16/2 (5), 12/13/2 (4-6), 69 6-10), 70/16/2 (5), 12/13/2 (4-6), 69 6-10), 70/16/2 (1-7), 26/13/2 (5), 13/14/2 (1-7), 26/13/2 (1-7), 13/14/2 (1-7), 13/14/2 (1-7), 13/14/2 (1-7), 13/14/2 (1-7), 13/14/2 (1-7), 13/14/2 (1-7), 13/14/2 (1-7), 13/14/2 (1-7), 13/14/2 (1-7), 13/14/2 (1-7), 13/14/2 (1-7), 14/14/2 (1-7),	ा में स्थित, विवर्ध सिंग प्राइयेट कि सिंग प्रावेश के कि सिंग प्राचित कि सिंग प्राचच कि सिंग प्राचित कि सिंग प्राचित कि सिंग प्राचच कि सिंग प्राचच कि सिंग प्राचच कि सिंग प्राचच कि	रण दिमानुद्धं रिलिस्ट हो के स्वित्त है। प्रावदेव से से 33/9/2 (1-21//4 (8-27/2/1 (2)-21//4 (8-27/2/1 (2)-21//4 (8-27/2/1 (2)-21//4 (8-27/2/1 (3)-21//4 (8-27/4 (8)-2	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 66 विकां विलेख सं. 66 विकां विलेख सं. 221 विकां विलेख सं. 352 विकां विलेख सं. 352 विकां विलेख सं. 353 विकां विलेख सं. 351 विकां विलेख सं. 351 विकां विलेख सं. 351 विकां विलेख सं. 353 (भाग ए-3) गिरखी विलेख विवरण सं. 363 विकां पत्नविल, हरिया विलेख विवरण विनिम्मव विलेख सं. 9 दिनांक 21/10/14	9322 दिनांक 9323 दिनांक 93232 दिनांक 10 दिनांक 12 7 दिनांक 13 दिन	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 04/12 00/12 00/12 (06/1	13/(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24//4/2(5-11), 6/2(3-74) वर्षा (3/1-5) (12-2) यानी 23//19/2 (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3-74(3-13) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यानी 3-32-2) में से (3-15) यानी 10/2/1/1(4-1) 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में से (3-15) यानी 10/2/1/1(4-1) 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में से (1-17 ½) यानी 33//2/2/1 (4-6) में से (4-15) यानी 10/2(0-2 14-6) में से (3-15) यानी 10/2(0-2 14-6) में से (4-15) यानी 10/2(0-2 14-6) में से (7-19) यानी 11//26(5-16/3(5-13), 17/2(5-17) तथा 11//26(5-17)	में से 19(10), 7(7-2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2)	(8-0) -18) 5-7) 0) 117(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) /11/2 (5-7) E स्वामित्व भूमि (21-04) (2.66	(14-0) (55-6) (6.9125 एकड़) (के-एम))))) एकड़) (के-एम)))	(2-5) (9-19) (4-10) (4-10) (4-10) (3-15) (4-15.33 (4-15.33 (4-15.33 (7-19) (0.9327 U7-17)) (0.9327 U7-17) (0.93
ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड, गाँट सिम्पेट (पूर्वासी में बिक्री/विनिमय लेख से तथा तिथि विक्री विलेख से. 8 देनांक 01/04/13 विक्री विलेख सं. 1711 देनांक 05/06//13 विक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2582 देनांक 21/06/13	णण) में स्थित व फिरोजपुर, ; संसर्ग विक्रम भूमि म (के-ए (944 (22-1: (8-0 (10-1: भूमि (15-07) (0-10: कुल भूमि (7-12) (8-2	तहसील औ लागिनिटट १७) (६ ६६ (६६ (६६ (६६ (६६ (६६ (६६)))) (६६ (६६	र जिला पलावल, हरियाण स्वस्त एंड मिरिटाइस सहि हिला पलावल, हरियाण स्वस्त एंड मिरिटाइस सहि हिलाईट के पक्ष में 5-12) वार्मी (15-14) हैं। 5-12) मार्मी (65-14) में 5-12/1 (7-8,137) (6-6-14) में 5-12/1 (7-8,137) (6-6-14) में 5-12/1 (7-8,137) (6-6-14) में 5-12/1 (6-6-14) में 5-12/1 (6-6-14) में 5-12/1 (6-6-14) में 5-12/1 (6-6-14) में 5-12/1 (6-6-14) में 5-13/1 (6-6-14) में 5-14/1 (6-6-14) में 5-14/1 (6-6-14) में 5-15/1 (6-6-14) में 6-15/1 (6-6-14) में 6-15	ा में स्थित, विव्हास हिन्दा होता होता होता होता होता होता होता होत	रण निमानुव- रेलिपिट है । प्रावनेय स्वातंत्र स्वातंत्र स	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 1 (i) विकां विलेख सं. 1 (ii) विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 20 विकां विलेख सं. 35 विकां विलेख सं. 35 विकां विलेख सं. 35 विकां विलेख सं. 35 विकां विलेख सं. 191 वेपक (96-14.50) यातं कुल मूं भीम सिंह वादव सं विकां विलेख दिनांक 1 विकां विलेख दिनांक 1 विकां विलेख दिनांक 31 वेपक (29-03) वेपक (29-03) वेपक विलेख विलेख विलेख विलेख विलेख विलेख सं. 9 दिनांक 21/10/14	3322 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 10 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 13 दिनांक 13 दिनांक 13 दिनांक 13 दिनांक 13 दिनांक 14 दिनांक 14 दिनांक 14 दिनांक 15 दिनांक 16 दिनांक 17 दिनांक 17 दिनांक 18 दि	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 004/12 004/12 004/12 (705	13/(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24/4/2(5-11), 6/2(3-64) (12-2) यानी 23//19/2 (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3/60 (17-2) यानी 13//19-12 (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3/60 (17-12) यानी 10//21/(4-124(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में ले (1-17) ¼) यानी 33//22/2 (4-8) में ले (1-17) ¼) यानी 33//22/2 (4-8) में ले (1-15) ¼ (4-15.3) यानी 10//21/(1-14-0) में ले (4-15.3) यानी 10//21/(1-14-0) में ले (4-15.3) यानी 10//21/2 (1-2-14-0) में ले (7-19) यानी 11//26/5 के स्वामित्त में भूमि माप (के-एम) यानी 11//26/5 (1-10) में ले (7-19) यानी 11//26/5 (1-10), 25/1(3-11) (20-10) में ले (7-19) यानी 11//26/5 (1-10), 25/1(3-11) (20-11), 23//21(8-0), 21//22/1 (4-11), 23//21(8-0), 21//22/1 (4-11) यानी (1) 24//4 में ले अध्यानी के पक्ष में अधिमाजित हिस्सा मूर्म माप (27/16) यो हिस्सो में ले (1-7), 32/75(8-0)	में से 19(7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)	(8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) /11/2 (5-7) © स्वांकिल कृषि	(14-0) (\$5-6) (6.9125 एकड़) (कें-एग))) ह एकड़) (गंदिक्स) मंग्रिक्स	(2-5) (9-19) (4-10) (4-10) (4-10) (3-15) (4-15.33 (5.1781 एव (7-19) (0.9937 एव रोजपूर, तहसील द प्रमुप्तिय भूमि
ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड, गाँ- त्रिमेटेड (पूर्वावर्ती में बिक्री-विनिमय लेख सं. तथा तिथि विक्री विक्री विलेख सं. 8 देनांक 01/04/13 विक्री विलेख सं. 1711 देनांक 05/06//13 बिक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13	णण) में स्थित व फिरोजपुर, ; संसर्स विक्रम भूमि म (के-ए (944 (22-1: (8-0 (10-1: भूमि म (15-07) (0-10: कुल भूमि (7-12)	तहसील औ लॉगिनिटट (8) (6 (8) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	र जिला पलवल, हिरीयाण स्वस एंड मैरीटाइस सहि विकास मॉर्सिटाइस एंड सिमिटाइस सिमिटाइस एंड सिमिटाइ	ा में स्थित, विवर्ध सिंग प्राइयेट र्वि सिंग राज्येट र्वा सिंग राज्येट राज्य	रण दिमानुद्धं रेलिमिड) के लिमानुद्धं रेलिमिड	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 66 विकां विलेख सं. 27 विकां विलेख सं. 25 विकां विलेख सं. 355 विकां विलेख सं. 355 विकां विलेख सं. 351 विलां पत्तवत्, हरियां विलों पत्तवत् । विलों सं. 3	3232 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 956 दिनांक हिनांक 122 दिनांक हिनांक 12 १ दिनांक 11 १ दिनांक 12 १ दिनांक 11 १ दिनांक 15 १ दिनांक 15 १ दिनांक 16 १ दिनांक 17 १ दिनांक 16 १ दिनांक 17 १ दिनांक 17 १ दिनांक 17 १ दिनांक 18 १	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 04/12 06/12 (06/12 (06/12 (06/12 (06/12) (06/12 (06/12 (16/14) (16/14	13/(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24/4/2(5-11), 6/2(3-64) (12-2) यानी 23//19/2 (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3/60 (17-2) यानी 13//19-12 (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3/60 (17-12) यानी 10//21/(4-124(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में ले (1-17) ¼) यानी 33//22/2 (4-8) में ले (1-17) ¼) यानी 33//22/2 (4-8) में ले (1-15) ¼ (4-15.3) यानी 10//21/(1-14-0) में ले (4-15.3) यानी 10//21/(1-14-0) में ले (4-15.3) यानी 10//21/2 (1-2-14-0) में ले (7-19) यानी 11//26/5 के स्वामित्त में भूमि माप (के-एम) यानी 11//26/5 (1-10) में ले (7-19) यानी 11//26/5 (1-10), 25/1(3-11) (20-10) में ले (7-19) यानी 11//26/5 (1-10), 25/1(3-11) (20-11), 23//21(8-0), 21//22/1 (4-11), 23//21(8-0), 21//22/1 (4-11) यानी (1) 24//4 में ले अध्यानी के पक्ष में अधिमाजित हिस्सा मूर्म माप (27/16) यो हिस्सो में ले (1-7), 32/75(8-0)	में से 19(100), 7(7- -2) 1/7112/3(5 32//5(8-6 32//5(8-	(8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) 1/1/2 (5-7) 21-04) (2.66	(14-0) (55-6) (6,9125 एकड़))) एकड़) (के-स्व))) एकड़) (के-स्व))) पकड़) (के-स्व))) पकड़) (के-स्व))) पकड़ (के-स्व)))) । । । । । । । । । । । । । । । ।	(2-5) (9-19) (4-10) (4-10) (4-10) (4-15.33 (4-15.33 एवं प्राप्त क्षिकी क्षिक क्षिक क्षि (7-19) (0.9937 स्
ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड़, गाँ वे नियमें दे पूर्वे प्रिक्ति बिक्री/विनिमय लेख सं तथा तिथि विक्री विक्री विलेख सं. 1711 त्पांक 05/06/13 विक्री विलेख सं. 1776 देनांक 07/06/13 विक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2582 देनांक 21/06/13 विक्री विलेख सं. 2582 देनांक 71/06/13	णण) में स्थित व फिरोजपुर, ; संसर्ग विक्रम भूमि म (के-ए (944 (22-1: (8-0 (10-1: भूमि (15-07) (0-10: कुल भूमि (7-12) (8-2	हहसील औ लॉजिंग्टिट (ह हे) (ह हे) (ह हे) (ह हे) (ह हे) (ह हे) (ह हे) (ह हे) (ह हे) (ह हे) (ह हे) (ह हे) (ह हे) (ह हे) (ह हे) (ह हे) (ह) (ह) (ह) (ह) (ह) (ह) (ह) (ह) (ह) (ह	स जिला पलावल, हरियाण स्वस्त एंड मेरिटाइस सहित स्वस्त एंड मेरिटाइस सहित स्वस्त एंड मेरिटाइस सहित सहित्रक सामित्रिट का एंड सिमिटेड के एक में 5-12) यानी 112/450 हिस्स १५ (०-5-14) मेरिटाइस (०-5-1	ा में स्थित, विव स्पेत्र प्राइवेट कि स्पेत्र प्राइवेट कि स्पेत्र प्राइवेट कि स्पेत्र (22-10) में हे 8), 18/2/2 (- 18/2 (रण निमानुर लिमिट) लेक्सिट हो स्थानित	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 1 (ii) विकां विलेख सं. 1 (ii) विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 66 विकां विलेख सं. 66 विकां विलेख सं. 66 विकां विलेख सं. 62 विकां विलेख सं. 524 विकां विलेख सं. 524 विकां विलेख सं. 524 विकां विलेख सं. 524 विकां विलेख सं. 525 विलेख विवरण विलेख सं. 525 विलेख विलेख सं. 525 विलेख विवरण विलेख सं. 525 विलेख विवरण विलेख सं. 525 विलेख सं.	9322 दिनोक 9323 दिनोक 9323 दिनोक 9323 दिनोक 9323 दिनोक 9322 दिनोक 10 दिनोक 12 12 दिनोक 13 दिनोक 14 11 11 12 12 दिनोक 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 04/12 05/12 (06/	13/(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24//4/2(5-11), 6/2(3-74) वर्षा 8/1 (0-6) (12-2) यानी 23//19/2 (4-20) वर्षा 8/1 (0-6) (12-2) यानी 23//19/2 (4-20) वर्षा 8/1 (0-6) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3-74 (3-15) यानी 10/2/11(4-1) 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में ले (3-15) यानी 10/2/11(4-1) 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में ले (4-153) यानी 10/2/10(2-1) 14-0) में ले (4-153) यानी 10/2(0-2) 14-0) में ले (4-153) यानी 10/2(0-2) 14-0) में ले (4-153) यानी 11//26(5-16/3(5-13), 17/2(5-17) लागा 11//26(5-16/3(5-13), 17/2(5-17) लागा 11//26(5-16/3(5-13), 17/2(5-17) लागा 18/1(3-10-4) यानी 11//26(5-0), 25/1(3-1-0-4) यानी 24//16/2(2-0), 25/1(3-1-1) 1(2-14), 23//21(8-0), 21//22/1 (4-17) वर्षा (10-4), 24/25/2(3-14) या हिस्सा तथा (11) 27/160 ये हिस्से में से (1-7), 3/75(8-0)	में से 19(7) (10), 7(7- 10), 7((8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) 1/1/2 (5-7) 21-04) (2.66	(14-0) (55-6) (6.9125) एकड़) (के-एस)))) (6.9125) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912)	(2-5) (9-19) (4-10) (4-10) (4-10) (4-15.33 (4-15.33 एवं प्राप्त क्षिकी क्षिक क्षिक क्षि (7-19) (0.9937 स्
ए) पालवल (हरिय 4.7625 एकह, गाँव 4.7625 एकह, गाँव 4.7625 एकह, गाँव विक्री टिविनमय त्रेख सं तथा तिथ विक्री विक्री विलेख सं. 1711 तोक 05/06//13 विक्री विलेख सं. 1776 देनांक 07/06//13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 दंनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 दंनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2582 दंनांक 21/06/13 विक्री विलेख सं. 2582 दंनांक 21/06/13 विक्री विलेख सं. 4443 दंनांक 04/09/13 विनिमय विलेख सं. 4604 दंनांक 10/09/13	णण) में स्थित व फिरोजपुर, ; संसर्ग विक्रम भूमि म (के-ए (944 (22-1: (8-0 (10-1: भूमि (15-07) (0-10: कुल भूमि (7-12) (8-2	तहसील औ लॉगिनिटर ११)) (६६ (६) (१)) (६६ (१) ११)) (१) ११) ११) ११) ११) ११) ११) ११) ११) ११)	र जिला पलवल, हिरीयाण स्वस एंड मैरीटाइस सहि विक्रम सामिरिटाइस सहि किमिरेट के पक्ष में 5-12) यामी 112/450 हिस्स 5-12) यामी 112/450 हिस्स 5-13) यामी (68-14) में 1, 6(7-7), 6/2 (3-8), 1, 6/7/(10-1), 1/2 (3-8), 1, 1/2 (3-8), 1, 1/2 (3-8), 1, 1/2 (3-8), 1, 1/2 (3-8), 1, 1/2 (1-1), 1/2 (3-8), 1, 1/2 (1-15), 1/2 (3-8), 1, 1/2 (1-15), 1/2 (3-8), 1/2 (1/2 (3-8),	ा में स्थित, विवर्ध सिर्मा प्रदेश हैं विश्व हैं विश्व हैं से सिर्मा हैं से दिखा है से सिर्मा है से हैं हैं हैं हैं है	रण निमानुत्र- रेलिम्ड) के आपनेट मानुत्र- 21//4 (8- -7/2/1 (2- -7/2/1 (2- -64//19/1 14/(25-04) 26/(19-1) 28/(19-1) 11 (3-17), 28/(19-1) 11 (3-17), 28/(19-1) 12 (4- मानुत्र- मानुत्र- मानुत्र- (15-04) 11 (3-17), 28/(19-1) 12 (4- मानुत्र- मानुत्र- (16-04) 12 (4- मानुत्र- (16-04) 13 (4- 14-14) 14/(19	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 7 (ii) विकां विलेख सं. 7 (ii) विकां विलेख सं. 7 (iii) विकां विलेख सं. 7 विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 27 विकां विलेख सं. 25 विकां विलेख सं. 355 विकां विलेख सं. 355 विकां विलेख सं. 351 विलां परावल, इरियां विलोख विकरण विनिमय विलेख सं. 12005 दिनांक 11/12 विनिमय विलेख सं. 12482 दिनांक 19/12 विनिमय विलेख सं. 12482 दिनांक 19/12 विनिमय विलेख सं. 12005 दिनांक 11/12 विनिमय विलेख सं. 12005 दिनांक 11/12 विनिमय विलेख सं. 12005 दिनांक 19/12 विनिमय विलेख सं. 12005 दिनांक 19/12 विनिमय विलेख सं. 12005 दिनांक 19/12	9322 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 10 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 13 दिनांक 15 दिनांक 15 दिनांक 16 दिनांक 17 दिनांक 16 दिनांक 17 दि	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 004/12 004/12 004/12 004/12 (705/12 (70	13/(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24//4/2(5-11), 6/2(3-24)/4/2(5-11), 6/2(3-24)/4/2(5-11), 6/2(3-24)/4/2(5-11), 6/2(3-24)/4/2(5-11), 6/2(3-24)/4/2(5-11), 6/2(3-24)/4/2(3-11), 6/	में से 19(7) (10), 7(7- 10), 7((8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) //1/2 (5-7) Ez स्वामित्व भूमि (21-04) (2.66 - न का समस्त 1 ककम्पनियों के	(14-0) (55-6) (6.9125) एकड़) (के-एस)))) (6.9125) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912)	(2-5) (9-19) (4-10) (4-10) (4-15.33 (4-15.33 (7-19) (2.7-19) (0.9937 एं क्ल्यूसिव भूमि
ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड, गाँ- तिमेटेड (पूर्वार्वी में बिक्री-विनिमय लेख सं तथा तिथि विक्री विक्री विलेख सं. 1711 त्नांक 05/06//13 विक्री विलेख सं. 1711 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 10/09/13 विक्री विलेख सं. 4443 देनांक 04/09/13 विनिमय विलेख सं. 4604 दंनांक 10/09/13	णण) में स्थित व फिरोजपुर, नेसर्स विक्रम भूमि म (के-ए (944 (22-1: (8-0 (10-1: भूमि म (15-07) (7-12) (8-2 (8-10	हहसील औ लॉगिनिस्टर (8) (6) (6) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	र जिला पलवल, हरियाण स्वस एंड मैरीटाइस सहि विकास सार्वित्रिक्त सहि विद्याप एंड मेरीटाइस सहि किसिटेड के पक्ष में 5-12) यानी 112/450 हिस्स 5-12) यानी 112/450 हिस्स 5-13) स्वर्ग (6-5-14) में 1, (8/7-7), (5/2 (5-6), 1, (8/7-7), (5/2 (5-6), 1, (8/7-7), (5/2 (5-6), 1, (8/7-7), (5/2 (5-6), 1, (8/7-7), (6/2 (5-6), 1, (8/7-7), (6/2 (5-6), 1, (8/7-7), (8/7-7), (8/7-7), 1, (8/7	ा में स्थित, विव स्पेत्र प्राइवेट कि स्पेत्र प्राइवेट कि स्पेत्र प्राइवेट कि स्पेत्र प्राइवेट कि स्पेत्र (22-10) में है 1/3 हिस्सा, (22-10) में है 1/3 हिस्सा, (18-2), (16-15), (16-15), (16-15), (16-15), (16-15), (16-12), (16-13),	रण दिमानुर- रणिस्ट) के लिस्ट- प्राथित के स्वर्धित स्वर्य स	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 2 (ii) विकां विलेख सं. 2 (ii) विकां विलेख सं. 2 (ii) विकां विलेख सं. 2 (iii) विकां विलेख सं. 2 विकां विलेख सं. 6 विकां विलेख सं. 2 विकां विलेख सं. 22 विकां विलेख सं. 354 विकां विलेख विलंख सं. 354 विकां विलंख सं. 3 विनामय विलंख सं. 3 विनामय विलेख सं. 12 विनामय विलेख सं. 13 विनामय विले	9322 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9322 दिनांक 9322 दिनांक 956 दिनांक 10 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 13 दिनांक 14 दिनांक 15 दिनांक 16 दिनांक 17 दिनांक 17 दिनांक 17 दिनांक 18 द	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 04/12 04/12 06/12 (06/1	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यांनी 24//4/2(5-11), 6/2(3-78 वर्षा 8/1 (0-6)) (12-2) यांनी 23//19/2 (4-20) वर्षा 8/1 (0-6)) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यांनी 3-78 (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यांनी 3-78 (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यांनी 3-12/2 में से (3-15) यांनी 10/2/11(4-1) 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में से (1-17 ½) यांनी 33//2/2/(1-1), 15/2(1-1), 17/1 (1-1), 40//10/12(0-2) 14-0) में से (1-17), 15/2(3-1), 15/2(3-1), 17/1 (1-1), 17/1	में से 19(7) (10), 7(7- 10), 7((8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) //1/2 (5-7) Ez स्वामित्व भूमि (21-04) (2.66 - न का समस्त 1 ककम्पनियों के	(14-0) (55-6) (6.9125) एकड़) (के-एस)))) (6.9125) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912)	(2-5) (9-19) (4-10) (4-10) (4-10) (4-15.33 (4-15.33 एवं प्राप्त क्षिकी क्षिक क्षिक क्षि (7-19) (0.9937 स्
ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड, गाँट निमिन्ट (पूर्वावर्ती में बिक्री-विनिमय लेख सं तथा तिथ विक्री विक्री विलेख सं. 1711 त्रांक 05/06//13 विक्री विलेख सं. 1776 देनांक 07/06/13 बिक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2582 देनांक 21/06/13 विक्री विलेख सं. 2582 देनांक 21/06/13 विक्री विलेख सं. 2582 देनांक 21/06/13 विनिमय विलेख सं. 4443 देनांक 04/09/13 विनिमय विलेख सं. 5651 देनांक 17/10/13 विनिमय विलेख सं. 5651 देनांक 17/10/13	णण) में स्थित व फिरोजपुर, नेसर्स विक्रम भूमि म (के-ए (944 (22-1: (8-0 (10-1: भूमि म (15-07) (7-12) (8-2 (8-10	हारसील औ लॉगिनिस्टर (६) (६) (६) (६) (६) (६) (६) (६) (६) (६)	त जिला पलावल, हरियाण स्वस्त एंड मिरिटाइस सहित स्वस्त एंड मिरिटाइस सहित स्वस्त एंड मिरिटाइस सहित सहित सहित सहित सहित है। स्वस्त है। स्वस्त है। स्वस्त है। स्वस्त है। स्वस्त है। स्वस्त है।	ा में स्थित, विवह सिर्मा स्थित, विवह सिर्मा स्थापन स्थापन सिर्मा (1-7), 10/21 (6-5), 15/27 हिस्सा, 18.504 में शामिल, 27 (1-7), 15/27 हिस्सा, 18.504 में शामिल, 27 (7-19), 10/27 (1-3), 15/27 (6-0), 27 (6-0), 27 (7-19), 10/27 (1-3), 27 (7-19), 10/27 (1-3), 27 (1-5) and 17 (7-19), 10/27 (1-3), 27 (1-5), 27 (1-6), 27	रण निमानुर- रणमिद्ध) के लिप्सिट- प्राथित के स्वर्धित स्वर्य स्वर्य स्वर्धित स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 27 विकां विलेख सं. 29 विकां विलेख सं. 29 विकां विलेख सं. 355 विकां विलेख सं. 355 विकां विलेख सं. 351 विकां या स्वाव्य सं. 351 विलां प्रस्वव्य, इरियां विलोख विवस्ण विनेमय विलेख सं. 9 दिनोमय विलेख सं. 1 12482 दिनांक 1/12 विनिमय विलेख सं. 1 12482 दिनांक प्रायः 1 13063 दिनांक प्रायः 1	9322 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 11 दिनांक 12 12 दिनांक 13 3 दिनांक 13 13 दिनांक 14 12 12 दिनांक 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 00	13/(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24//4/2(5-11), 6/2(3-7 वार्षा 8/1 (0-6) (12-2) यानी 23//19/2 (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3-7 वार्षा 8/1 (3-15) यानी 10//21/(4-1) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यानी 3-2) में से (3-15) यानी 10//21/(4-1) 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में से (1-17 ½) यानी 33//22/2 (4-8) में से (1-17 ½) यानी 33//22/2 (4-8) में से (4-1533) यानी 10//21/14(0-1) (4-0) यानी 24//4/2 (2-13), 15/3(3-17), 17/1 (1-0) यानी 24//4/2 (2-13), 15/3(3-17), 17/1 (1-0) यानी 11//26(5-13), 17/2(5-17), 7या 18/1(3-10) में से (7-19) यानी 11//26(5-13), 17/2(5-17), 7या 18/1(3-10) यानी 24//16/2(2-0), 25/1(3-11(2-14), 23//21(8-0), 21//22/1 (4-214), 23//21(8-0), 21//22/1 (4-214), 23//21(8-0), 21//22/1 (4-214), 23//21(8-0) के प्रत्या यानी 24//4 में से अध्यापत (1) 24//4 में से से (1-0), (16-0) के 24//25/26 में से से (6-0) 33/11 (8-0) के 24//40 में से से (1-0), (16-0) के 24//25/26 हिस्से में से (1-0)	में से 19(7) (10), 7(7- 10), 7((8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) //1/2 (5-7) Ez स्वामित्व भूमि (21-04) (2.66 - न का समस्त 1 ककम्पनियों के	(14-0) (55-6) (6.9125) एकड़) (के-एस)))) (6.9125) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912)	(2-5) (9-19) (4-10) (4-10) (4-15.33 (4-15.33 (7-19) (2.7-19) (0.9937 एं क्ल्यूसिव भूमि
ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड, गाँ- विमिन्दे (पूर्वावर्ती में बिक्री-विनिमय लेख से तथा तिथि बिक्री विलेख सं. 8 देनांक 01/04/13 विश्वी विलेख सं. 1711 देनांक 05/06//13 बिक्री विलेख सं. 2015 देनांक 07/06/13 बिक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 12/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2582 देनांक 21/06/13 विनिमय विलेख सं. 4443 देनांक 10/09/13 विनिमय विलेख सं. 5651 देनांक 17/10/13 विनिमय विलेख सं. 5551 देनांक 17/10/13 विनिमय विलेख सं. 5500 देनांक 10/09/13	णा) में स्थित व किरोजपुर, रेससी विक्रम देससी विक्रम भूमि म (के-ए (944 (22-1: (8-0 (10-1: भूमि म (15-07) (0-10 कुल भूमि (7-12) (8-2	हहसील औ लॉजिंग्टिट ने) (5) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8	र जिला परनाल, हरियाण स्वस्त एंड मिरिटाइस सहिं कित्रम लॉकिस्टिक्स एंड हिम्सिटाइस सहिं किसके के प्रक्ष में 222-18) व्यर्गी (56-14) में 5/12/1 (7-8,13/1 (0-0)) में 227-18) व्यर्गी (66-14) में 5/12/1 (7-8,13/1 (0-0)) में 5/12/1 (7-8,13/1 (0-0)) में 5/12/1 (7-8,13/1 (0-0)) में 5/12/1 (1-17) व्यर्ग (1-17) (1-17) व्यर्ग	ा में स्थित, विव्हित्स, विविद्ध, विविद्द, विविद्ध, विवि	हण दिमानुद्धं केलिस्टिंड हो क्लिस्टिंड हो क्लिस्टिंड हो किलिस्टेड हो किलस्टेड हो किलिस्टेड हो किलिस्टेड हो किलिस्टेड हो किलिस्टेड हो किलस्टेड हो किलिस्टेड हो किलिस्टेड हो किलिस्टेड हो किलिस्टेड हो किलस्टेड हो हो किलस्टेड हो हो किलस्टेड हो हो किलस्टेड हो किलस्टेड हो कि	सार है: डि: ह स्वामित्व विक्रम र भूमि माप 11), 34 11/1 (2 35//5 ((6-16), 12) an- ii)	स्ट्रीय्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। बॉजिस्टिबम एंड मैरी लिमिटेड के पक्ष में (८८८-12) क) (८ -/1(8-0), 9/1 12-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 14/1 (5-1), 14 d 15/3 (1-14) 3 (8-0), 32//6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 32//25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्वि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिस्त 8-0) में ग्रामिस्त	(ii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 1 (ii) विकां विलेख सं. 2 (ii) विकां विलेख सं. 2 (ii) विकां विलेख सं. 2 (iii) विकां विलेख सं. 2 (iii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 2 (विकां विलेख सं. 2) विकां विलेख सं. 25 (विकां विलेख सं. 25) विकां विलेख सं. 25 (भाग ए-3) गिरवी जिला पलवल, हरियाः विलेख विवरण विनिमय विलेख सं. 1 2006 दिनांक 11/12 विनिमय विलेख सं. 2016 (ii) विनिमय विलेख सं. 2016 2016 दिनांक 11/12 (ii) विनिमय विलेख सं. 2016 2016 दिनांक 11/12 2017 विनिमय विलेख सं. 2016 2017 विनिमय विलेख सं. 2016 2018 दिनांक 11/12 2018 दिनांक 11/12 2018 दिनांक 11/12	2322 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 12 दिनांक 17 दिनांक 18 दि	13/03/12 13/03/12 14/09/12 14/09/12 14/09/12 14/09/12 04/12 04/12 04/12 04/12 (06/12 ((/003/12) ((13/(0-8), 8/2/26(0-2) तथा (17-5) (2-5) यांनी 24//4/2(5-11), 6/2(3-7 वां 8/1 (0-6)) (12-2) यांनी 23//19/2 (4-6) (12-2) यांनी 23//19/2 (4-6) का ½ हिस्सा यांनी 3-7 वां 8/1 (3-15) यांनी 10//21//(4-1 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में से (3-15) यांनी 10//21//(4-1 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (1-1), 40//10//12(0-2 (1-1), 40//10//10//12(0-2 (1-1), 40//10//10//10//10//10//10//10//10//10//	में से 19(7) (10), 7(7- 10), 7((8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) //1/2 (5-7) Ez स्वामित्व भूमि (21-04) (2.66 - न का समस्त 1 ककम्पनियों के	(14-0) (55-6) (6.9125) एकड़) (के-एस)))) (6.9125) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912)	(2-5) (9-19) (4-10) (4-10) (4-10) (4-15.33 (4-15.33 (7-19) (0.937 ए 7-19) (0.937 v 7-19) (0.937
ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड, गाँट विक्रीनिस्ड (पूर्ववर्ती में बिक्री-विनिमय लेख सं. तथा तिथि विक्री विक्री विलेख सं. 1711 देनांक 01/04/13 बिक्री विलेख सं. 1771 देनांक 05/06//13 बिक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 बिक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 21/06/13 विक्री विलेख सं. 4443 देनांक 04/09/13 विनिमय विलेख सं. 5651 वेनांक 10/09/13 विनिमय विलेख सं. 5651 वेनांक 10/09/13	णा) में स्थित व किरोजपुर, रेससी विक्रम देससी विक्रम भूमि म (के-ए (944 (22-1: (8-0 (10-1: भूमि म (15-07) (0-10 कुल भूमि (7-12) (8-2	हहसील औ लॉगिनिटट (8) (6 (8) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	त जिला पलावल, हरियाण स्वस्त एंड मिरिटाइस सहित स्वस्त एंड मिरिटाइस सहित स्वस्त एंड मिरिटाइस सहित सहित सहित सहित सहित है। स्वस्त है। स्वस्त है। स्वस्त है। स्वस्त है। स्वस्त है। स्वस्त है।	ा में स्थित, विव्हित्स, विविद्ध, विविद्द, विविद्ध, विवि	हण दिमानुद्धं केलिस्टिंड हो क्लिस्टिंड हो क्लिस्टिंड हो किलिस्टेड हो किलस्टेड हो किलिस्टेड हो किलिस्टेड हो किलिस्टेड हो किलिस्टेड हो किलस्टेड हो किलिस्टेड हो किलिस्टेड हो किलिस्टेड हो किलिस्टेड हो किलस्टेड हो हो किलस्टेड हो है किलस्टेड हो किलस्टेड हो किलस्टेड हो किलस्टेड हो किलस्टेड हो है किलस्टेड हो किलस्टेड हो किलस्टेड हो है किलस्टेड हो है किलस्टेड हो है किलस्टेड हो किलस्टेड हो है किलस्	祝田 常: 空間 日本 (日本)	स्ट्रीव्यूयन लॉजिस्टिव में हैं। बॉजिस्टिक्स पृंह मेंसी लिमिटेड के पक्ष में (188-12) क) (8 (17) (18-0), 9/1 (1-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 6(8-0), 14/1 (18-1),	स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट टाग्रम सिवंसेज प्राइवेट विग्रेष भूमि 0-12), 321/25 (7- (7-14), 10 (8-0),), 20-2 (5-1), क्षि 7/1 (5-13), 13/1 3/3 (0-4), 15/(3- में शामिल (2-10) तखा में शामिल	(ii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 27 विकां विलेख सं. 29 विकां विलेख सं. 29 विकां विलेख सं. 355 विकां विलेख सं. 355 विकां विलेख सं. 351 विकां या स्वाव्य सं. 351 विलां प्रस्वव्य, इरियां विलोख विवस्ण विनेमय विलेख सं. 9 दिनोमय विलेख सं. 1 12482 दिनांक 1/12 विनिमय विलेख सं. 1 12482 दिनांक प्रायः 1 13063 दिनांक प्रायः 1	9322 दिनांक 9323 दिनांक 932 दिनांक 12 दिनांक 11 दिनांक 12 दिनांक 12 दिनांक 13 दिन	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 004/12 004/12 005/12 (06/12 (06/12 (07/12 (06/12 (07/12 (06/12 (07/12 (06/12 (07/12 (06/12 (07/12 (06/12 (07/12 (06/12 (07/12 (07/12 (06/12 (07/12 (06/12 (07/12 (06/12 (07/12 (06/12 (07/12 (06/12 (07/12 (06/12 (07/	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24//4/2(5-11), 6/2(3-72) वर्षा कर 1/(5-6) (12-2) यानी 23//19/2(4-2) (12-2) यानी 23//19/2(4-2) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3-72 का 1/(3-13) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यानी 3-72 के 1/(3-13) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यानी 3-72 के 1/(3-13) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यानी 3-72 के 1/(3-13) (4-0), 1/(3-13) यानी 10//21/(4-1) (4-0), 1/(3-13) यानी 10//21/(4-1) (4-0), 1/(3-13) यानी 10//21/(4-1) (4-0), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-0), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-0), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-0), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-0), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-	में से 19(7) (10), 7(7- 10), 7((8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) //1/2 (5-7) Ez स्वामित्व भूमि (21-04) (2.66 - न का समस्त 1 ककम्पनियों के	(14-0) (55-6) (6.9125) एकड़) (के-एस)))) (6.9125) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912)	(2-5) (9-19) (4-10) (4-10) (4-10) (4-15.33 (4-15.33 (7-19) (0.937 ए 7-19) (0.937 v 7-19) (0.937
ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड, गाँ- विक्री-विजिम्ब लेख से तथा तिथि बिक्री विलेख सं. 1711 त्रांक 05/06//13 बिक्री विलेख सं. 1711 त्रांक 05/06//13 बिक्री विलेख सं. 1776 देनांक 07/06//13 बिक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 बिक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 बिक्री विलेख सं. 2582 देनांक 13/06/13 बिक्री विलेख सं. 2582 देनांक 17/06/13 विक्री विलेख सं. 2582 देनांक 10/06/13 विक्री विलेख सं. 2582 देनांक 10/06/13 विनिमव विलेख सं. 4443 देनांक 10/09/13 विनिमव विलेख सं. 5651 देनांक 10/09/13 विनिमव विलेख सं. 5651 देनांक 10/09/13 विनिमव विलेख सं. 5651 देनांक 10/09/13 विनिमव विलेख सं. 5651 देनांक 10/09/13	णा) में स्थित व किरोजपुर, में स्थित व किरोजपुर, में स्थित व किरोजपुर, में सर्व विक्रम जूमि में (के-फ्) (944 (22-1) (8-0 (10-1) फूमि में (15-07) (0-10 कुल भूमि (7-12) (8-2 (8-16 (2-18 (20-0) (20-0) (20-0) (20-0) (20-0) (20-0)	तहसील औ लॉजिंग्टिट जो जो जे जे जे जे जे जे जे जे जे जे जे जे जे	र जिला पलावल, हरियाण स्वस्त एंड मिरिटाइस सहि हिला स्वत्र एंड मिरिटाइस सहि हिला स्वत्र सामिटाइस एंड हिला हिला हिला हिला हिला हिला हिला हिला	ा में स्थित, विव्हिंस में सिज प्राइवेट कि में सिज प्राइवेट कि में सिज प्राइवेट कि में से 1/3 हिस्सा, 2/2 (0) से 1/3 हिस्सा, 2/2 (0) 18/2 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	रण नियानुद्धं केलिस्टिश्चं है। क्लिस्टिश्चं केलिस्टिश्चं	祝田 常: 空間 日本 (日本)	स्ट्रीव्यूयन लॉजिस्टिव में हैं। बॉजिस्टिक्स पृंह मेंसी लिमिटेड के पक्ष में (188-12) क) (8 (17) (18-0), 9/1 (1-0), 11/3 (3-6 (8-0), 6(8-0), 6(8-0), 14/1 (18-1),	स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विशेष भूमि 0-12), 23//25 (7- (7-14), 10 (8-0), 0, 20-2 (5-1), कि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिल 8-0) में ग्रामिल प्रामिल	(ii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 27 विकां विलेख सं. 29 विकां विलेख सं. 29 विकां विलेख सं. 355 विकां विलेख सं. 355 विकां विलेख सं. 351 विकां या स्वाव्य सं. 351 विलां प्रस्वव्य, इरियां विलोख विवस्ण विनेमय विलेख सं. 9 दिनोमय विलेख सं. 1 12482 दिनांक 1/12 विनिमय विलेख सं. 1 12482 दिनांक प्रायः 1 13063 दिनांक प्रायः 1	2322 वितांक 9323 वितांक 9323 वितांक 9323 वितांक 9323 वितांक 9323 वितांक 12 वितांक 13	13/03/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 14/09/12 13/03/12 04/12 04/12 04/12 04/12 04/12 04/12 (06/12 (()/03/12 ()/03/12 ()/03/12 (()/03/12 ()/03/12 (()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ()/03/12 ())/03/12 (()/03/12 ()/03/12	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24//4/2(5-11), 6/2(3-72) वर्षा कर 1/(5-6) (12-2) यानी 23//19/2(4-2) (12-2) यानी 23//19/2(4-2) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3-72 का 1/(3-13) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यानी 3-72 के 1/(3-13) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यानी 3-72 के 1/(3-13) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यानी 3-72 के 1/(3-13) (4-0), 1/(3-13) यानी 10//21/(4-1) (4-0), 1/(3-13) यानी 10//21/(4-1) (4-0), 1/(3-13) यानी 10//21/(4-1) (4-0), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-0), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-0), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-0), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-0), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-1), 1/(3-1), 1/(3-1) (4-	में से 19(7) (10), 7(7- 10), 7((8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) //1/2 (5-7) Ez स्वामित्व भूमि (21-04) (2.66 - न का समस्त 1 ककम्पनियों के	(14-0) (55-6) (6.9125) एकड़) (के-एस)))) (6.9125) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912)	(2-5) (9-19) (4-10) (4-10) (4-10) (4-15.33 (4-15.33 (7-19) (0.937 ए 7-19) (0.937 v 7-19) (0.937
ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड, गाँ- तिमिस्ट (पूर्वावर्ती में बिक्री-विनिमय लेख सं. तथा तिथि विक्री विक्री विलेख सं. 1711 देनांक 05/06//13 बिक्री विलेख सं. 1771 देनांक 05/06//13 बिक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 बिक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2582 देनांक 21/06/13 विक्री विलेख सं. 4443 देनांक 04/09/13 विनिमय विलेख सं. 5651 देनांक 17/10/13 विनिमय विलेख सं. 5651 देनांक 16लेख सं. 5651 देनांक 16लेख सं. 5687 देनांक 21/00/13	णा) में स्थित व किरोजपुर, रेससे विक्रम देससे विक्रम पूर्विम म (के-ए (944 (22-1: (8-0 (10-1: पूर्विम म (15-07) (8-2 (8-16 (4-18.	तहसील औ लॉजिंग्टिटर (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (9) (9) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17	त जिला परनाल, हिरीयाण स्वस्त एंड मीरिटाइस सहित सिवाइस साहित्यक्त एंड सिवाइस हो सिवाइस हो सिवाइस हो साहित्य	ा में स्थित, विवह सिंग स्थान, विवह सिंग स्थान, विवह सिंग स्थान सिंग स्थान हों हो सिंग स्थान सिंग स्थान सिंग स्थान सिंग स्थान सिंग सिंग सिंग सिंग सिंग सिंग सिंग सिंग	रण दिमानुवं स्तिमिद्ध है स्तिम	祝田 常: 空間 日本 (日本)	स्ट्रीव्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। गॉजिस्टिबस एंड मैसी लिमिटेड के पक्ष में (88-12) क) (8 (8-0), 6(8-0), 6(8-0), 6(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 32/6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विशेष भूमि 0-12), 23//25 (7- (7-14), 10 (8-0), 0, 20-2 (5-1), कि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिल 8-0) में ग्रामिल प्रामिल	(ii) विका विलेख सं. 1 (iii) विका विलेख सं. 2 विका विलेख सं. 6 विका विलेख सं. 6 विका विलेख सं. 2 विका विलेख सं. 22 विका विलेख सं. 25 विका विलेख सं. 25 विका विलेख सं. 52 विका विलेख सं. 55 विका विलेख सं. 59 विका विलेख सं. 59 विका विलेख सं. 59 विका विलेख सं. 59 विका विलेख विका विलेख विका विलेख विका विलेख विका विलेख विका विलेख विका पत्र- 5 विका पत्र- 5 विका पत्र- 5 विका पत्र- 6 विका पत्र- 6 विका पत्र- 6 विका पत्र- 6 विनामय विलेख सं. 2 (विनामय विलेख सं. 12005 दिनांक 11/12 विनामय विलेख सं. 12005 दिनांक 11/12 (ii) विनामय विलेख 13062 दिनांक 70/01 (iii) विनामय विलेख 13063 दिनांक 70/01 (iii) विनामय विलेख 13063 दिनांक 70/01 (iii) विनामय विलेख 13063 दिनांक 70/01	3222 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 12 दिनांक 13 दिनांक 15 दिनांक 15 दिनांक 15 दिनांक 16 दिनांक 16 दिनांक 17	13/03/12 13/03/12 14/09/12 14/09/12 14/09/12 04/12 04/12 04/12 05/12 (07/12 (0	13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24/4/2(5-11), 6/2(3-64) (12-2) यानी 23//19/2 (4-66) (12-2) यानी 23//19/2 (4-60) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3-78 (13-15) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यानी 3-78 (3-15) यानी 10//21/1(4-1) 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में से (3-15) यानी 10//21/1(4-1) 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में से (1-17) ½ 1 यानी 33//22/2-14-6) में से (4-1533) खर्षे 21/62/3-8), 22/10/2-14-6) में से (7-19) यानी 11//26(5-16)-14-6) यानी 11//26(5-16)-14-6)-14-6) में से (7-19) यानी 11//26(5-16)-14-6)-14	में से 19(7) (10), 7(7- 10), 7((8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) /11/2 (5-7) © स्वासित पृषि	(14-0) (\$5-6) (6.9125 एकड़) (कें-एम)))) के एकड़) (कें-एम))) के एकड़) (कें-एम))) के एकड़) (कें-एम) के एकड़) (कें-एम) के एकड़) (कें-एम) के प्रक्रिक के प्रक्	(2-5) (9-19) (1-15) (4-10) (4-10) (1-17)/4 (4-15.33 स्वर्ण क्रिक्ट्रोस क्रिक्ट्रा स्वर्ण (7-19) (0.9937 स्प
ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड, गाँव तिपटेड (पूर्वावर्ती में बिक्री/विनिमय लेख से तथा तिथि विलेख से तथा तिथि विलेख से हें देनांक 01/04/13 विक्री विलेख सं. 1711 देनांक 05/06//13 विक्री विलेख सं. 2015 देनांक 07/06/13 विक्री विलेख सं. 2015 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2016 देनांक 13/06/13 विक्री विलेख सं. 2582 देनांक 21/06/13 विक्री विलेख सं. 4643 देनांक 10/09/13 विक्रीमय विलेख सं. 4604 देनांक 10/09/13 विक्रीमय विलेख सं. 5651 देनांक 17/10/13 विक्रीमय विलेख सं. 5000 देनांक 30/09/13 विक्री विलेख सं. 5007 देनांक 21/10/13	णा) में स्थित व किरोजपुर, में स्थित व किरोजपुर, में स्थित व किरोजपुर, में सर्व विक्रम जूमि में (के-फ्) (944 (22-1) (8-0 (10-1) फूमि में (15-07) (0-10 कुल भूमि (7-12) (8-2 (8-16 (2-18 (20-0) (20-0) (20-0) (20-0) (20-0) (20-0)	हरतील औ लॉजिंग्टिट (8))))) (6 (6 (8))))))))))))))))))	त जिला पत्थलन, हरियाण स्वस्त एंड मेरिटाइस सहित स्वस्त एंड मेरिटाइस सहित सहस्त हरियाण स्वस्त एंड मेरिटाइस सहित हरियाण स्वस्त एंड मेरिटाइस सहित हरियाण	ा में स्थित, विवर्दा में स्थित, विवर्दा में सिया, विवर्दा में सिया में सिय	रण नियानुद्धं क्लिपिट हो अंदि हो स्वार्धिक स्वर्धिक स्वार्धिक स्व	祝田 常: 空間 日本 (日本)	स्ट्रीव्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। गॉजिस्टिबस एंड मैसी लिमिटेड के पक्ष में (88-12) क) (8 (8-0), 6(8-0), 6(8-0), 6(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 32/6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विशेष भूमि 0-12), 23//25 (7- (7-14), 10 (8-0), 0, 20-2 (5-1), कि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिल 8-0) में ग्रामिल प्रामिल	(ii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 27 (विकां विलेख सं. 27 (विकां विलेख सं. 27) विकां विलेख सं. 27 (विकां विलेख सं. 355 (विकां विलेख सं. 355 (विकां विलेख सं. 351 (विलेख संतां विलेख सं. 351 (विलेख सं. 351	3222 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 12 दिनांक 13 दिनांक 15 दिनांक 15 दिनांक 15 दिनांक 16 दिनांक 16 दिनांक 17	13/03/12 13/03/12 14/09/12 14/09/12 14/09/12 14/09/12 14/09/12 004/12 004/12 004/12 (005/12 ((((07/12)) (((07/12)) (((05/12)) (((07/12)) ((((07/12)) ((((07/12)) (((((07/12))) ((((((((((((((((((((((((((((((((((13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24/4/2(5-11), 6/2(3-64) (12-2) यानी 23//19/2 (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3-64 (19-0) (8-0) का ½ हिस्सा यानी 3-76 (19-0) का ¾ हिस्सा यानी 11//26(5-10) का ¾ (19-0) का ¾ (1	में से 19(7) (10), 7(7- -2) 1/712/8(5- 52//8(5-(-1)), 7(7- 1/712/8(5)), 7(7- 1/712/	(8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) /11/2 (5-7) © स्वांकित कृषि (21-04) (266 न का समस्त १ कम्पनियों के ल भूमि माप ('//11/1/2(2-9-9-4) के 1/2 ही तथा 20/2(7-1	(14-0) (55-6) (6.9125) एकड़) (के-एस)))) (6.9125) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912) एकड़) (7.912)	(2-5) (9-19) (9-19) (4-10) (4-10) (1717/4) (4-15.33 (41-15.33 (5.178) एक (7-19) (0.0037)0.003 (0.0037)0.003 (0.0037)0.003 (0.0037)0.003 (0.0037)0.003 (0.0037)0.003 (0.0037)0.003
ए) पलवल (हरिय 4.7625 एकड, गाँट विक्री विनिमय लेख से तथा तिथि विक्री विलेख से तथा तिथि विक्री विलेख से सं . 1711 देनोक 05/06//13 विक्री विलेख सं . 1776 देनोक 13/06/13 विक्री विलेख सं . 2015 देनोक 13/06/13 विक्री विलेख सं . 2016 देनोक 13/06/13 विक्री विलेख सं . 2016 देनोक 13/06/13 विक्री विलेख सं . 2016 देनोक 13/06/13 विक्री विलेख सं . 2618 देनोक 21/06/13 विक्री विलेख सं . 2618 देनोक 21/06/13 विक्री विलेख सं . 2618 देनोक 21/06/13 विक्री विलेख सं . 2618 विनिमय विलेख सं . 2651 देनोक 17/10/13 विनिमय विलेख सं . 5651 देनोक 17/10/13 विनिमय विलेख सं . 5651 देनोक 18/09/13	णा) में स्थित व किरोजपुर, में स्थित व किरोजपुर, में स्थित व किरोजपुर, में सर्व विक्रम जूमि में (के-फ्) (944 (22-1) (8-0 (10-1) फूमि में (15-07) (0-10 कुल भूमि (7-12) (8-2 (8-16 (2-18 (20-0) (20-0) (20-0) (20-0) (20-0) (20-0)	हारसील औ लॉगिनिस्टर (६) (६) (६) (६) (६) (६) (६) (६) (६) (६)	त जिला पलवल, हिरीयाण स्वस एंड मेरीटाइस सहि विकास मार्गिस्टिया पर हिर्माण स्वस एंड मेरीटाइस सहि किसिन्टेड के पक्ष में 5-12) यामी 112/450 हिस्स 5-12) यामी 112/450 हिस्स 5-12) यामी 112/450 हिस्स 5-12) यामी 112/450 हिस्स 5-12) मार्गिस (5-1-5) 16/17/(6-1-0) 1/5/17/(6-1-0) 16/17/(6-1-0) 1/5/17/(6-1-0) 16/17/(6-1-0) 1/5/(17/(6-1-0)) 16/17/(6-1-0) 1/5/(6-1-0) 16/17/(6-1-0) 1/5	ा में स्थित, विवह सिंग स्थान, विवह सिंग स्थान, विवह सिंग स्थान सिंग सिंग स्थान सिंग सिंग सिंग सिंग सिंग सिंग सिंग सिंग	रण निमानुव- रेलिपिड) के लिए रेलिपिड) के अ- रेलिपिड) के अ- रेलिपिड) के स्वाप्त के स्वाप्त के से, 33/9/2 (3- 21///4 (3- 25///4)	祝田 常: 空間 日本 (日本)	स्ट्रीव्यूयन लॉजिस्टिब में हैं। गॉजिस्टिबस एंड मैसी लिमिटेड के पक्ष में (88-12) क) (8 (8-0), 6(8-0), 6(8-0), 6(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 4(8-0), 32/6 (स्त इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट ट्राइम सिवंसेज प्राइवेट विशेष भूमि 0-12), 23//25 (7- (7-14), 10 (8-0), 0, 20-2 (5-1), कि 7/1 (5-13), 13/1 /3 (0-4), 15/1(3- में ग्रामिल 8-0) में ग्रामिल प्रामिल	(ii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 1 (iii) विकां विलेख सं. 7 (ii) विकां विलेख सं. 7 (iii) विकां विलेख सं. 7 (iii) विकां विलेख सं. 7 विकां विलेख सं. 1 विकां विलेख सं. 6 विकां विलेख सं. 6 विकां विलेख सं. 6 विकां विलेख सं. 6 विकां विलेख सं. 52 विकां विलेख सं. 52 विकां विलेख सं. 52 विकां विलेख सं. 55 विकां विलेख सं. 191 वेधक (१६-14.50) यार्च अंका सं विलेख सं. 191 वेधक (१६-14.50) यार्च अंका विलेख सं. 191 वेधक (१६-14.50) यार्च अंका विलेख संत्र विलेख विकां विलेख संत्र विलेख विकां विलेख संत्र विलेख विकां विलेख सं. 9 विलोख विवरण विलेख सं. 9 विलोख विलेख सं. 12006 विलोक 17/12 विलेख विवरण विलोख विलेख सं. 12006 विलोक 17/12 विलेख विवरण विलोख विवरण व	3222 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 9323 दिनांक 12 दिनांक 13 दिनांक 15 दिनांक 15 दिनांक 15 दिनांक 16 दिनांक 16 दिनांक 17	13/03/12 13/03/12 14/09/12 14/09/12 14/09/12 14/09/12 14/09/12 004/12 004/12 004/12 (005/12 ((((07/12)) (((07/12)) (((05/12)) (((07/12)) ((((07/12)) ((((07/12)) (((((07/12))) ((((((((((((((((((((((((((((((((((13/1(0-8), 8/2/2(0-2) तथा (17-5) (2-5) यानी 24/4/2(5-11), 6/2(3-64) (12-2) यानी 23//19/2 (4-66) (12-2) यानी 23//19/2 (4-60) (4-10) (9-0) का ½ हिस्सा यानी 3-78 (13-15) (4-0), (8-0) का ½ हिस्सा यानी 3-78 (3-15) यानी 10//21/1(4-1) 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में से (3-15) यानी 10//21/1(4-1) 24(8-0), 25/1(1-7), 25/2(6-0), 2 (4-8) में से (1-17) ½ 1 यानी 33//22/2-14-6) में से (4-1533) खर्षे 21/62/3-8), 22/10/2-14-6) में से (7-19) यानी 11//26(5-16)-14-6) यानी 11//26(5-16)-14-6)-14-6) में से (7-19) यानी 11//26(5-16)-14-6)-14	में से 19(7) (10), 7(7- -2) 1/712/8(5- 52//8(5-(-1)), 7(7- 1/712/8(5)), 7(7- 1/712/	(8-0) -18) 5-7) 0) 17(7-14), 5-8) 23/1/2 1/1/1 (4-13) /11/2 (5-7) © स्वांकित कृषि (21-04) (266 न का समस्त १ कम्पनियों के ल भूमि माप ('//11/1/2(2-9-9-4) के 1/2 ही तथा 20/2(7-1	(14-0) (55-6) (कं-एम) ब्र (कं-एम) कं-एम) ब्र (कं-एम) कं-एम) ब्र (कं-एम) कं-एम) ब्र (कं-एम) कं-एम) कं-एम) ब्र (कं-एम) कं-एम) कं-एम) कं-एम) कं-एम) कं-एम) (कं-एम) कं-एम) (4-98)	(2-5) (9-19) (9-19) (4-10) (4-10) (3-15) (4-15,33) (4-15,33) (5.1781 एक (7-19) (0.9937 (0.9937)0.9937 (0.9937)0.9937 (0.9937)0.9937 (0.9937)0.9937 (0.9